

बोर सेवा मन्दिर  
दिल्ली



५२७

कम सम्पाद्या

काल न०

खण्ड

२४८

KIC

36<sup>4</sup>

सन्मति प्रकाशन—नं० ११

# मूर्गधा

( इतिहास और संस्कृति )

लेखक

बैजनाथसिंह 'विनोद'

प्रकाशक

जैन संस्कृति संशोधन मंडल  
पो० बनारस हिन्दू युनिवर्सिटी

१९५४

प्रकाशक  
दलसुख मालवग्निया,  
मत्री  
जैन सस्कृति सशोषन मडल  
बनारस हिन्दू युनिवर्सिटी

मूल्य : १)

मुद्रक  
श्री परेशनाथ घोष  
सरला प्रेस,  
बनारस

## प्रकाशकीय

श्री 'विनोद' जी की प्रस्तुत पुस्तिका में मगध का प्राचीन इतिहास सांख्यिक दृष्टिकोण से लिखा गया है। वाचक देखेंगे कि प्राचीन काल में मगधदेश श्रमण धर्मों के विकास का केन्द्र रहा है। वह भी देखेंगे कि वहाँ श्रमण और जापाणों का संघर्ष और समन्वय किस प्रकार हुआ है। लेखक ने प्राचीन मगध की संस्कृति का जो संक्षिप्त चित्र खीचा है वह किसी खास धर्म के पक्षपात से नहीं किन्तु एक ऐतिहासिक की तटस्थ हृषि से। मैं श्री 'विनोद' जी का आभारी हूँ कि उन्होंने अपनी पुस्तिका प्रकाशनार्थ मंडल को दी।

दलसुख मालविण्या

मंत्री

जैन संस्कृति संशोधन मंडल

बनारस

## विषय-सूची

विषय	पृष्ठ
वेदों में मगध का उल्लेख	१
प्राचीन जैन ग्रंथों में मगध	२
ब्रात्य और मगध	३
ब्राह्मण धर्म के बाहर	४
महावीर से पूर्व	५
मगध का प्रथम राज्य	५
जरासन्ध और गिरिबज	६
विभिन्नसार का मगध	८
पाश्वनाथ का धर्म	११
अवैदिक विचारों का केन्द्र मगध	१३
जैन और बौद्ध धर्म में एकता और भिन्नता	१४
जैन बौद्ध और जनभाषा	१५
मगध साम्राज्य का प्रारंभ	१७
धर्म और राज्य	१८
उदयि और पाटलिपुत्र	१९
शिशुनाग वंश	२०
नन्दों का मगध	२१
भारतीय इतिहास में कान्ति और प्रतिकान्ति	२२
मगध में घड़्यन्त्रों का जोर और परिणाम	२५
पश्चिमी भारत की राजनीतिक स्थिति	२६
पुरविया चन्द्रगुप्त मौर्य	२६
महान राजनीतिश चाणक्य	२७
चाणक्य और चन्द्रगुप्त की एकता	२८
राजनीतिक दाव-पेंच	३०

पराजय के चिह्न मिटाएं	...	३६
महान भारत	...	३८
कौटिलीय अर्थशास्त्र	...	३९
पाटलिपुत्र का नगर-शासन	...	४०
सेना का संगठन	...	४१
प्रजा की सेवा	...	४२
सिद्धपराक्रम चन्द्रगुप्त का अन्तिम जीवन	...	४३
बिन्दुसार	...	४४
विजेता अशोक	...	४५
महान अशोक	...	४६
अशोक के धार्मिक कार्य	...	४७
बौद्धधर्म की तीसरी संगीति	...	४८
अशोक की कलाप्रियता	...	४९
अशोक की नीति की आलोचना	...	५०
अशोक के परवर्ती मौर्य	...	५१
ब्राह्मण परम्परा के पुनरावर्तन के कारण	...	५२
श्रमण परम्परा की कमज़ोरी	...	५३
पुष्यमित्र का आविर्भाव	...	५४
भगव भगव में श्रमण-ब्राह्मण वात-प्रतिवात	...	५५
भगव की प्राचीन भाषा	...	५६
पालि और अर्धभागधी	...	५७
जैनागम साहित्य	...	५८
त्रिपिटक साहित्य	...	५९
भारत की प्राचीन राष्ट्रभाषा—पालि	...	६०
संस्कृत राज-आसन पर	...	६१

# मगध

( इतिहास और संस्कृति )

वेदों में मगध का उल्लेख

अंगुच्चर निकाय के अनुसार मगध भारतवर्ष के प्राचीन सोलह महा जनपदों में से एक जनपद था। ऋग्वेद में मगध शब्द का स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता। ऋग्वेद में कीकटों के देश का उल्लेख इस प्रकार है:—

कि ते कुण्वन्ति कीकटेषु गाबो नाशिरं दुहे न तपन्ति घर्मम् ।

आ तो भर प्रमगन्दस्य वेदो नैचाशाखं मघवन् रन्धया नः ॥

—ऋग्वेद, ३।५३।१४.

अर्थात्—वे क्या करते हैं कीकटों के देश में जहाँ गायें पर्याप्त दूध नहीं देतीं और न उनका दूध ( सोमयाग के लिये ) सोमरस के साथ मिलता है। वे मघवन् तू प्रमगन्द के सोमलता वाले देश को भली भाँति हमारे हुंकार से भर दो।

यहाँ प्रमगन्द से नैचा शाखा ( नीच जाति = अनार्य ; स्थान—पूर्व ) की ओर संकेत है। और प्रमगन्द = अवैदिक ; स्थान पश्चिमोत्तर की ओर संकेत है। यह याद रखें कि इस समय वैदिक आर्यों की आवास-भूमि भी मध्यदेश था। यहाँ मगध शब्द का उल्लेख नहीं है, पर कीकटों का देश ही मगध है। मगध के प्रति हीन मावना है। मगध मध्यदेश के पूर्व में है।

( २ )

आथर्ववेद में मगध का स्पष्ट उल्लेख है :—

गन्धारिभ्यो मूजवद्भ्योऽङ्गेभ्यो मगधेभ्यः ।

प्रैषन् जनमिव शेषवधि तक्मनं परिदद्यसि ॥

—आथर्ववेद ५। २३।१४.

( हे ज्वरनाशन देव, तुम ) तक्मन ( ज्वर ) को गन्धारियों, मूजवन्त के निवासियों, अंग के रहने वालों तथा मगध के बसने वालों के पास उसी प्रकार सरलता से भेजते हो, जिस प्रकार किसी व्यक्ति या कोष को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज देते हैं ।

फिर आथर्ववेद में ही :—

“.....प्रियं धाम भवति तस्य प्राच्यं दिशि । ४

अद्वा पुंश्चली मित्रो मागधो विज्ञानं वासो हरुणीषं

रात्री केशा हरितौ प्रवत्तीं कल्मलिर्मणिः ॥ ५ ॥

—आथर्ववेद १५।२।१-५.

आर्थात्—वात्य का प्रिय धाम प्राची दिशा । उसकी अद्वा स्त्री और मगध मित्र ।

यह तो मगध जनपद का उल्लेख हुआ बाइण धर्म के अति प्राचीन साहित्य—वैदिक साहित्य में । अब हम यह देखें कि और किस साहित्य में—अति प्राचीन काल में—मगध का जिक्र है ।

प्राचीन जैन ग्रन्थों में मगध

जैन धर्म के अति प्राचीन ग्रन्थों में मगध का उल्लेख है । प्रशापना सूत्र ( १ पद ), सूत्रकृतांग और स्थानांग में मगध को राजगृह का आर्य जनपद कहा गया है । आवाराग में मगहपुर और राजगृह का उल्लेख है । निशीथ सूत्र में उल्लेख है कि एक समय में जब तीर्थकर महावीर साकेत में धर्म प्रचार कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि—जैनों का चरित्र और ज्ञान मगध तथा अंग देश में अनुग्रहण रह सकता है ।

इन सब उद्दरणों से स्पष्ट है कि अमण संस्कृति में मगध को पवित्र माना गया है। उसे आर्य—आर्यात् श्रेष्ठ लोगों का जनपद कहा गया है। मगध में जैन-ज्ञान और आचार की रक्षा भी मानी गई है। इस समय मगध अच्छी तरह से बस तुका या और आर्य राज्यों और उपनिवेशों की स्थापना हो तुकी थी। सुशासन और सुख्यवस्था से चोर डाकुओं से रक्षा और सामाजिक आचार की सुविधा थी।

### ब्रात्य और मगध

अर्थर्व वेद में ब्रात्यों का प्रिय धाम प्राची दिशा को बताया गया है। यहाँ मगध की ओर सकेत है। अमण संस्कृति में ब्रत धारण करने के कारण अमणों को ब्रात्य कहा गया है जैन-निर्गम्य-ब्रात्य थे। वे वेदों को प्रमाण नहीं मानते थे। वे याग-यज्ञ और पशु-हिसा का विरोध करते थे। तपस्या से आत्मशोधन में विश्वास करते थे। इसीलिए उनको ब्रात्य कहा गया है। ये ब्रात्य देश के अन्य भागों में भी रहते थे। जैन अनुश्रुति के अनुसार जैनों के प्रथम तीर्थंकर क्षेत्रम् देव कोसल देश के राजा थे। नेमिनाथ सूरसेन प्रदेश के रहने वाले थे। पार्श्वनाथ काशी के राजकुमार थे। इस प्रकार ब्रात्य तो देश के और भागों में भी फैले थे। पर ब्रात्यों की पुण्यभूमि मगध को ही कहा गया है। इसका यह मतलब हुआ कि ब्रात्यों की साधनाभूमि मगध प्रदेश था। और जैन अनुश्रुति के अनुसार जैनों के चौबीस तीर्थंकरों में से चौस का निर्वाण यही हुआ था। इसी से यह स्पष्ट होता है कि वैदिक याग-यज्ञों को अमान्य कर ब्रत और तपस्या पर जोर देने वाले ब्रात्यों का पीठस्थान मगध था। इसीलिए अर्थर्व वेद में ब्रात्यों का प्रियधाम प्राची दिशा को कहा गया है और मागधों को उनका पित्र बताया गया है। लाट्यायन औतसूत्र ( ८, ६, २८ ) और कात्यायन औतसूत्र ( २२, ४ २२ ) में इस बात का उल्लेख है कि ब्रात्य धन या तो पतिव्राद्धण को दिया जाय या मगध के ब्राद्धण को दिया जाय। इससे यह

भी स्पष्ट होता है कि मगध के ब्राह्मण भी वेद और वेदानुमोदित याग-यज्ञ को आसानी से छोड़ देते थे। उन पर अमण्ड और यति विचार-धारा का प्रभाव शीघ्र पड़ता था। जैन धर्म के प्राचीन ग्रन्थों में इसका उल्लेख है कि मगध के अच्छे-अच्छे विद्वान् ब्राह्मणों ने जैन धर्म स्वीकार किया। जैन तीर्थकर महावीर के प्रथम शिष्य और प्रमुख गणधर इन्द्रभूति गौतम मगध के प्रसिद्ध ब्राह्मण विद्वान् थे, जिहोने जैन धर्म स्वीकार किया था।

### ब्राह्मण धर्म के बाहर

शतपथ ब्राह्मण ( १, ४; १, १० ) में इस बात का भी जिक्र है कि मागधीं की तो बात ही क्या कोसल और विदेह भी प्राचीनकाल में पूर्ण रूप से ब्राह्मणधर्म में दीक्षित नहीं थे। वस्तुतः भारतवर्ष के पूर्वी भाग में वैटिक आयों का पूरा बल नहीं था। इसीलिए देश के इस भाग में निर्माण, साख्य, भागवत और यति धर्म जोरों पर था। इन धर्मों का उपदेश करने वालों को अमण्ड, यति, अर्हंत, जिन, तीर्थकर आदि कहते थे। इन धर्मों को मानने वाले सभी सापदायों में यह एकता थी कि कोई भी वेदों को प्रमाण नहीं मानते थे। आगे चलकर इनमें से भागवत और साख्य ने तो वेदों को प्रमाण रूप में स्वीकार भी कर लिया। पर अमण्डों की परम्परा के निर्माणों और बौद्धों ने वेदों को प्रमाण रूप में नहीं ही स्वीकार किया।

### महावीर से पूर्व

इन निर्माणों का अपना साधु सब भी था। अति प्राचीन काल में इस साधु संघ का मुख्य आधार अहिंसा और योग अथवा तप था। पर ८०० ई० पू० में पाश्वनाथ ने सम्प्रदाय में संशोधन करके उसके चार आधार बनाए—अहिंसा, सत्य, अचौर्य और अपरिग्रह। इसे पाश्वनाथ का चातुर्याम धर्म भी कहते हैं। पाश्वनाथ ने इस चातुर्याम धर्म का सूच घ्रन्चार किया। बंगाल के राज देश में भी पाश्वनाथ ने चातुर्याम धर्मका

प्रचार किया था । पर पार्श्वनाथ की मृत्यु के कुछ काल बाद उनके साधु संघ में शिथिलता आ गई । साधु लोग जिन प्रयत्न किए जुट गए भोगने वाले पदार्थों के भोग में किसी प्रकार का संकोच नहीं करते थे । महावीर के साथ आजीवक साम्प्रदाय का जिन बातों पर मतभेद हुआ, उनमें से मुख्य ये थीं—१, शोतल जल का उपयोग करना, २, अपने लिए तैयार किए गये अन्न और भोजन का ग्रहण करना, और ३, जिन विवाह किए मिल गई स्त्रियों का भोग करना । इनमें से तीसरी बात पार्श्वनाथ के शिष्यों में भी आ गई थी, जिसका महावीर ने विरोध करके साधु संघ को पच महाब्रतों से बाख दिया । महावीर के पच महाब्रतों में चार तो पार्श्वनाथ के चातुर्याम ही थे । पाचवे ब्रह्मचर्य को महावीर ने बढ़ाया । इस ब्रह्मचर्य महाब्रत के कारण जैन साधुओं को यां ही—जिन प्रयत्न के—मिल गई जियांके भोग से भी विरत होने के लिये बाय हो जाना पड़ा । साबना और तपस्या का यह प्रयोग विशेष रूप से मगध में हुआ । इन्हीं ऐतिहासिक कारणों से जैनों ने मगध को पुण्य भूमि माना । और ब्रात्यों की पुण्य भूमि होने के कारण मगध ब्राह्मणों के लिये पाप भूमि हो गया ।

### मगध का प्रथम राज्य

पुराणों के अनुसार जन्दु की चौथी, सम्भवतः पाचवीं पीढ़ी में कुश और उसका भाई अमूर्तरया हुआ । इसी अमूर्तरया ने अथवा उसके पुत्र गय ने गया नाम का एक नया राज्य स्थापित किया, जो आगे चलकर मगध कहलाया । इसके बहुत दिनों बाद, कुरु की पाचवीं पीढ़ी में वसु नाम का एक बड़ा प्रतापी राजा हुआ । उसने यादवों के चेदि राज्य को जीतकर अपने अधीन किया । उसे चैदोपरिचर भी कहते हैं । उसने मत्स्यदेश से लेकर मगध तक को अपने अधीन किया । उसने सप्ताष्ट चक्रवर्तीं विरुद्ध भी धारण किया । उसका राज्य उसके पांच पुत्रों में बंट गया । उसका एक पुत्र वृहद्रथ मगध का राजा हुआ । इसी वृहद्रथ ने

मगध में बाह्द्रथ वंश की नींव डाली । इस बाह्द्रथ वंश ने ही मगध की राजनीतिक सत्ता स्थापित की ।

### जरासन्ध और गिरित्रिज

बाह्द्रथ वंश में ही जरासन्ध नामक बड़ा प्रतापी राजा हुआ । कुछ विद्वान् जरासन्ध को बसुका पौत्र बताते हैं । जो भी हो ; पर जरासन्ध का उल्लेख जैन ग्रन्थों में भी मिलता है और महाभारत में भी । जैन ग्रन्थों में मगहसिरी गणिका का उल्लेख है, जो जरासन्ध की गणिका थी (आव० चू० ४ अध्याय) । मगहसुन्दरी भी जरासन्ध की गणिका थी इसके अलावा आचाराग चूर्णि प्रथम श्रुतत्वन्ध में मगधसेना नामक एक वेश्या का उल्लेख है, जो धन नामक एक सार्थवाह पर आसक्त हो गई थी । पर उसने सम्पत्ति में मगन रहने के कारण मगध-सेना का और ध्यान भी नहीं दिया । इस पर मगधसेना बड़ी खिल्ल हुई । जरासन्ध के पूछने पर उसने कहा कि धन नामक सार्थवाह ने सम्पत्ति में मगन रहने के कारण उसके रूप और थौवन की उपेक्षा की, इसीलिए वह दुखी है । मगधसेना ने धन नामक सार्थवाह को व्यंग से अमर भी कहा है ।

जरासन्ध बड़ा प्रतापी राजा था । उसने अग, बंग, पुंड्र, कुष और चेदि देश को अपने वश में कर लिया था । चेदि का राजा शिशुपाल उसका प्रधान सेनापति था । आत्रकन्त्रिणि सघ का ज्येष्ठ (नेता) कस उसका दामाद था । जरासन्ध एकराट राजा था । उसकी आकाशा भारत-सम्माट होने की भी थी । उसकी नीति साम्राज्य-विस्तार की थी । पर उस काल के महान नीतिशय युगपुरुष श्रीकृष्ण से उसका वैर था । उस युग में कौरवों और पाण्डवों में भी भारतसम्माट होने की सामर्थ्य थी । श्रीकृष्ण की मैत्री पाण्डवों से थी । श्रीकृष्ण बहुत ही नीतिनिपुण थे । वह जानते थे कि तत्कालीन राजनीतिक परिस्थिति में जरासन्ध को युद्ध में नहीं जीता जा सकता और विना जरासन्ध को मारे पाण्डवों की प्रतिष्ठा भारतसम्माट होने की सीमा

पर नहीं जा सकती । पर श्रीकृष्ण को जरासन्ध की कमजोरी का भी ज्ञान था । वह जानते थे कि जरासन्ध बहुत प्रसिद्ध मल्ल है । व्यक्तिगतरूप से वह बड़ा वीर और हठी भी है । श्रीकृष्ण ने जरासन्ध की इस कमजोरी अथवा उसके इस मानसिक रहस्य से फायदा उठाया । और वह भीम तथा अर्जुन को अपने साथ लेकर गुमरूप से जाकर उसके महल में प्रकट हुए ।

जिस समय श्रीकृष्ण ब्राह्मण स्नातक के वेश में भीम और अर्जुन के साथ मगध की राजधानी गिरिवज में प्रवेश कर रहे थे, उस समय उन्होंने मगध की राजधानी गिरिवज की शोभा का वर्णन इस प्रकार किया :—

“हे पार्थ ! देखो, मगध राज्य का महानगर कैसा सुशोभित है । उत्तम-उत्तम अद्वालिकाओं से सुशोभित यह महानगरी सुजला निष्पद्वा और गवादि से पूर्ण है । वैहार, वराह, वृषभ, ऋषिगिरि तथा चैत्यक ये पांचों शैल सम्मिलित होकर गिरिवज नगर की रक्षा कर रहे हैं । पुष्पितशाखाग्र, सुगन्धपूर्ण मनोहर लोब्रवनराजि ने उन शैलों को मानों ढंक रखा है ।” ( महाभारत, सभा० ) ।

श्रीकृष्ण भीम और अर्जुन के साथ ब्राह्मण के वेश में थे । पुरोहित के विद्यार्थियों में मिलकर वह भी जरासन्ध के राजमहल में चले गए । पर जरासन्ध राजपुरुष था । उसे इन तीनों पर मन्देह हुआ । उसने कहा—‘स्नातकों, ब्राह्मणों को तो मैंने माल्य और अनुलेपन के साथ देखा है ; पर उनके कन्धे पर प्रत्यचा के निशान नहीं देखे । सच बताओ तुम कौन हो ? यदि ब्राह्मण हो तो पूजा स्वीकार करो ।’ यहाँ कृष्ण स्पष्ट कहते हैं कि हम लोग ब्राह्मण नहीं, ज्ञात्रिय हैं और तुम्हारे शत्रु हैं । इस पर जरासन्ध ने कहा कि मैंने तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाढ़ा ; किर मुझे तुम अपना शत्रु कैसे कहते हो ? मजे की बात तो यह कि यहाँ भी श्रीकृष्ण अपने को स्पष्ट रूप में नहीं प्रकट करते ; वर्णा शायद जरासन्ध उनकी धात में न आता । यहाँ श्रीकृष्ण यही कहते हैं कि तुम बहुत

से द्वितीयों को पकड़ कर यद्द के निकट उनको बलि देना चाहते हों। तुम मनुष्य बलि से शकर की पूजा करना चाहते हो, वह सब से बड़ा पाप है। इसी कारण हम तुमको मल्ला युद्ध की चुनोता देते हैं। हम में से किसी के साथ लड़ो अर्थवा राज छोड़ दो। इस पर जरासन्ध जो कुछ कहता है, वह बहुत महत्वपूर्ण है। उसने कहा कि मैंने बिना युद्ध में जीते किसी राजा को कैद नहीं किया और युद्ध में जीते राजा के साथ चाहे जैसा भी करना द्वितीयोचित धर्म है।

यहाँ यह ध्यान देने योग्य है कि जरासन्ध ने जीते हुए द्वितीय राजा को बलि चढ़ा देना भी धर्म कहा है। इसका तर्कप्रमत्त उत्तर श्रीकृष्ण के पास नहीं था। खाएडव वन में अर्तुन के साथ नाग जाति के मनुष्यों को श्रीकृष्ण ने ही जलाकर मारा और भगाया था। अर्थात् यह उम काल का सावारण धर्म था। इनसे सिद्ध होता है कि महाभारत युद्ध के पहले तक जीते हुए शत्रु को मार डालने तक की प्रथा प्रचलित थी। शत्रु राजा को मार कर उसकी सेना को गुलाम भी बनाया जाता था। इसी कारण धर्म-शास्त्रों में दासों के एक प्रकार में युद्ध में जीते दासों की भी गिनती है।

यदि डॉ० काशीप्रसाद जायमवाल के अनुसार महाभारत युद्ध का काल ईसा से १४०० साल पूर्व माना जाय, तो कहा जा सकता है कि उस समय भारत में और मगध में नरबलि ही नहीं, नरपति-बलि की प्रथा थी। महाभारत के अनुसार जरासन्ध से पूर्व मगध में जरा नाम को एक राज्यसी थी, जो नर-शिशु का आहार करती थी। बौद्ध साहित्य के अनुसार युद्ध ने इस राज्यसी के शिशु को चुराकर, उसके मन में शिशु के प्रति करणा की भावना पैदा की और चाद में वह राज्यसी निषादों की देवी बन गई। इससे ऐसा लगता है कि बहुत प्राचीन काल में मगध में ऐसी जाति थी, जो नर-मांस का आहार करती थी। ऐसी ही विकट परिस्थिति में मानव समाज के कल्याण के लिये अहिंसा की साधना का आविष्कार हुआ होगा।

जरासन्ध ने मोटे तगड़े भीम के साथ मल्ल युद्ध करना पसन्द कर अपने वीर-मानस का परिचय दिया । चौथे दिन युद्ध हुआ । जरासन्ध बूढ़ा था । थक गया था । हाँक रहा था । ऐसी परिस्थिति का फायदा उठा कर युवक भीम ने श्रीकृष्ण का इशारा पाकर थके जरासन्ध को मार डाला । नीतिहीन जरासन्ध का बल निर्बल सिद्ध हुआ । जरासन्ध के बाद उसका पुत्र सहदेव मगध का राजा हुआ ।

### विम्बिसार का मगध

कुछ विद्वानों का मत है कि बाह्द्रय वंश का अन्तिम राजा रिपुंजय था । इसका पुलिक नामक एक आमात्य था । पुलिक ने षड्यन्त्र करके रिपुंजय को मार डाला और अपने बालक नामक पुत्र को मगध की गढ़ीपर बैठाया । इस प्रकार मगध के सिंहासन से सदैव के लिये बाह्द्रय वंश का अन्त हो गया । पर बालक का शासन ठीक से स्थापित न हो सका । मगध के क्षत्रियों की श्रेणी ने बालक के शासन को स्वीकार नहीं किया । उस काल में क्षत्रियों की, जिनमें अधिकतर सैनिक होते थे, अनेक ऐसी श्रेणियाँ थीं, जिनका सगठन राज्य से सर्वथा स्वतन्त्र होता था और जिनका सहयोग प्राप्त करना राजा के लिये परम आवश्यक माना गया है । मगध के क्षत्रिय श्रेणियों ने बालक के राज्य का विरोध किया । भट्टिय नामक एक सरदार ने मगध में विद्रोह कराकर राज्य सिंहासन पर अधिकार कर बालक को मरवा डाला । पर भट्टिय स्वयं राज्य सिंहासन पर नहीं बैठा । उसने अपने लड़के विम्बिसार को मगध के सिंहासन पर बैठाया । भट्टिय सैनिक दल का नेता ही बना रहा । बाद में शायद विम्बिसार मगध के राजा के साथ सैनिक दलों का नेता भी हो गया । इसीलिए उसे श्रेणिक विम्बिसार भी कहते हैं ।

यही से मगध में नाग-बंश का शासन स्थापित होता है । कुछ विद्वानों का मत है कि मगध में सबसे पहला नाग राजा शैशुनाग है । पर कुछ लोग इसे नहीं मानते । हमारा काम इस विवाद में पड़ना नहीं

है । पर इतना स्पष्ट मालूम पड़ता है कि मगध में नाग ज्ञात्रियों की वस्ती थी । गिरिविज के बीच में मणिनाग का स्थान था, जिसे मणियार मठ के नाम से अब भी लोग जानते हैं । अतः मगध में नाग ज्ञात्रियों का आधिपत्य होना सर्वथा स्वाभाविक था ।

श्रेणिक विभिन्नसार हर्यङ्क वश का था । हर्यङ्कवश भी विस्तृत नाग जाति की ही एक शाखा है । अतः इस तथ्य में कुछ भी परक नहीं पड़ता कि वार्षद्रिथ वश के बाद मगध में नागों की सत्ता स्थापित हुई । पर मगध में नागों की सत्ता स्थापित होने के पूर्व काशी में नागों की सत्ता स्थापित हो चुकी थी । १० पू० ६०० में काशी में नागों की सत्ता स्थापित थी । वस्तुतः परीक्षित की मृत्यु के बाद नाग पुनः प्रबल हो गए थे । काशी नाग जाति का पीठ स्थान था । काशी के देवता शकर महादेव थे । तीन लोक से न्यारी और शिव के त्रिशूल पर काशी का अर्थ है कि काशी के नाग ज्ञात्रियों ने वैदिक आर्यों की प्रधानता को बहुत दिनों तक नहीं माना था । जैन तीर्थकरों में तेईसवें तीर्थकर पार्श्वनाथ काशी के नाग-ज्ञात्रिय थे । राजकुमार थे । वह काशी के ब्रह्मदत्त राजाओं की परम्परा में थे । पार्श्वनाथ ऐतिहासिक व्यक्ति है और उनका काल १० पू० ८०० है । इन सब से सिद्ध है कि यह पूर्व में नागों के अभ्युत्थान का काल था ।

विभिन्नसार जब मगध की गद्दी पर बैठा तो मगध एक छोटा सा राज्य था । बुद्ध के समय में मगध का विस्तार आज के पटना जिला और गया जिला के उत्तरी भाग तक को घेरता था । इसी भाग को आज मगध भी कहते हैं । सुप्रसिद्ध बौद्ध विद्वान् राज्य डेविड मगध की सम्मावित सीमाएं इस प्रकार बताते हैं—उत्तर में गगा, पञ्च्छीम में सोन, पूरब में अग देश और दक्षिण में छोटा नागपुर का जगल ।

विद्वानों का मत है कि लगभग १० पू० ५४३ में विभिन्नसार ने मगध का शासन सूत्र सम्हाला । उसने अपनी राजधानी गिरिविज से जरा हटा ली । उसने बैमार और विपुल गिरि के उत्तर सरस्वती नदी के पूरब तथा

उध्याप्रसवण से कुछ दूर जो अपनी नई राजधानी बसाई उसी का नाम राजगृह है। गिरिब्रज के अवशेष स्वरूप 'जरासन्ध का अखाड़ा', 'जरासन्ध का मन्चान' और उसके परकोटे आज भी हैं। उसी से जरा हट कर राजगृह का निर्माण विम्बिसार ने कराया। विम्बिसार बहुत महत्वाकांक्षी था। उसने पहले अपने पास पड़ोस के छोटे राजाओं को जीता और फिर आगे बढ़ कर अंग को जीत कर सभी को मगध में मिला लिया। उसने कई एक ऐसी शादियाँ की जिनका राजनीतिक महत्व था। उसकी एक रानी कोसल देश के राजा प्रसेनजित की बहन थी। उसकी दूसरी एक रानी चेलना लिङ्ग्युवि प्रमुख चेटक की बहन थी। एक रानी विदेह कुमारी थी। इन वैवाहिक सम्बन्धों से विम्बिसार ने काफी लाभ उठाया। कोसल की राजकुमारी के साथ व्याह के अवसर पर उसे काशी का राज्य दहेज में मिल गया, जो उस समय कोसल के अधीन था। इस प्रकार मगध राज्य की सीमा का उसने काफी विस्तार किया।

### पाश्वनाथ का धर्म

ओणिक विम्बिसार का महत्व राजनीति की अपेक्षा साम्कृतिक दृष्टि से अधिक है। वह स्वयं नाग ज्ञात्रिय था। नाग ज्ञात्रिय परम्परा से वैदिक कर्मकाण्डों से अलग थे। वह ब्रात्य थे। एक नाग ज्ञात्रिय पाश्वनाथ ने पाश्वापत्य धर्म की स्थापना की थी, जिसे चातुर्याम धर्म भी कहते हैं। इस धर्म के मानने वाले मगध, अंग और वज्रिसंघ में थे। चातुर्याम धर्म द्वारा जन साधारण में कुछ नैतिक चेतना भी जागृत हुई थी। यह चातुर्याम धर्म—अहिंसा, सत्य, अचौर्य और अपरिग्रह था। अहिंसा और सत्य तो अति प्राचीन धर्म हैं। इन्हीं दोनों सिद्धान्तों के सहारे बर्बर मनुष्य बर्बरता से ऊपर उठ सका। अचौर्य और अपरिग्रह की प्रतिष्ठा रम्भवतः पाश्वनाथ ने की है। किसी की बरतु को बिना दिये हुये लेने को चोरी कहते हैं। चोरी करने वाला अपने आप में कुछ हीन—कुछ

कमजोर—हो जाता है। समाज में भी अव्यवस्था पैदा होती है। इसलिए चोरी से दूर रहने की बात पाश्वनाथ ने जो प्रचारित की सो तो समझ में आ जाती है। पर अपरिग्रह का प्रचार क्यों किया? इसे समझने के लिये परिग्रह का जान लेना आवश्यक है। बृहत्कल्प-भाष्य में (८२५), आ० भद्रबाहु के अनुसार परिग्रह के दस भेद हैं :—

“खेत, बालु (मकान), घन (सोना-चौंडी), धान्य (चावल आदि अन्न), कुप्य (वर्तन), सचय (हिंग मिर्च आदि मसाले), शानिजन, दासदासी आदि, यान (पालकी रथ आदि) और शयन-आसन।”

आध्यात्मिक साधना में तो इन परिग्रहों द्वारा वाधा पड़ ही सकती है। सामाजिक व्यवस्था के लिये भी इन परिग्रहों से बचना आवश्यक या। पाश्वनाथ ने खूब अच्छी तरह प्रचारित किया कि दास-दासियों को बिना मुक्त किये धर्म का जीवन, साधना का जीवन नहीं विताया जा सकता। इसका एक प्रभाव यह भी हुआ होगा कि जो गरीब अथवा साधारण जन थे, उनके प्रति धनियों में हीन दृष्टि का जोर नहीं बढ़ा होगा। फलतः जन साधारण कुछ ऊपर उठे होंगे। पर उत्तराध्ययन से यह सिद्ध है कि महावीर के पहले अपरिग्रह धर्म में शिथिलता आने लगी थी। उस शिथिलता को दूर करने के लिये ही महावीर ने नगनाता पर जोर दिया। यह तीर्थकर महावीर श्रेणिक विभिन्नसार के समय में थे। कहा जाता है कि विभिन्नसार अपनी गनी चेह़रना के प्रभाव से जैन हो गया। एक कथा है कि एक बार श्रेणिक विभिन्नसार शिकार खेलने जगल में गये थे। जंगल में उन्हें एक जैन साधु समाधि लगाये मिल गये। विभिन्नसार ने किसी कारण चिढ़कर जैन मुनि के गले में एक मरा सर्प लपेट दिया। महल में बापस आने पर उन्होंने अपनी रानी चेह़रना से इस घटना का उल्लेख किया। यह सुनकर चेह़रना बहुत दुखी हुई। वह पाश्वापत्यिक मुनियों से परिचित थी। उसने उक्त मुनि का दर्शन करना चाहा। चेह़रना

विभिन्नसार की बड़ी प्रिय रानी थी । उसकी इच्छा रखने के स्थिते विभिन्नसार उसे लेकर जहाँ मुनि समाधि लगाए बैठे थे, वहाँ जंगल में गये । चेष्टना ने स्वयं मुनि के गले में पड़े मरे सर्प को हटाया । मुनि ने विन्द हटा जान कर समाधि भंग किया और राजा तथा रानी को आशीर्वाद दिया । इस घटना का विभिन्नसार के जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ा । पर यह कहानी महाभारत की शृंगि ऋषि की कथा की अनुकारी भी मालूम होती है । किंतु इसमें सन्देह नहीं कि विभिन्नसार जैन हो गया था ।

### अवैदिकी विचारों का केन्द्र मगध

विभिन्नसार का महत्त्व इसलिए भी है कि उसके काल में मगध और उसकी राजधानी राजगढ़ प्राचीन रूदियाँ के खण्डन और नये विचारों के प्रवर्तन का बड़ा भारी केन्द्र था । यदि वह उदार न होता, यदि वह नये विचारों का आदर न करता, तो उसके राज्य में तत्त्वचिन्तकों—विचारकों—का केन्द्र न होता ।

बौद्ध ग्रन्थों में छै शक्तिशाली विचारकों का उल्लेख है । ये सभी मगध के मूल निवासी नहीं हैं ; पर इन सभी की साधना भूमि मगध है । इनमें अजित केशकम्बलिन्, मक्खली गोसाल, पूर्ण काश्यप, प्रकुप कात्यायन, सजय वेलाढि पुत्त और निगन्थ नाथपुत्त (महावीर) हैं । ये सभी वैदिक विचारधारा के विरोधी थे । अजित केशकम्बलिन् की विचारधारा को पूर्ण रूप से सामने रखने का साधन नहीं है । पर इतना स्पष्ट है कि वह वैदिक याग-यज्ञों का विरोधी था । वह चार महाभूतों से सूष्ठि की उत्पत्ति और मृत्यु के बाद उन्हीं में लय मानता था । परलोक और उसके लिये किये जाने वाले दान पुण्य को वह भूठा समझता था । एक जन्म के पाप-पुण्य को दूसरे जन्म में भोगने और ब्रह्मज्ञानी होने का भी वह मजाक करता था । मक्खली गोसाल आजीवक सम्प्रदाय का नेता था । मगध से आवस्ती तक यह सम्प्रदाय फैला था । मक्खली बहुत गरीब मान्दाय का बेटा था । गोशाला में पैदा होने के कारण

उसको गोसाल कहते हैं। पर पाणिनि ने मरुकी शब्द को यह-त्यागियों के लिये माना है। इसके अनुसार लेने पर साधु गोसाल अर्थ होगा। यह याद रहे कि पाणिनि को बहुत से विद्वान् ३० पू० ७ वीं शती का मानते हैं। गोसाल महत्वाकांक्षी भी था। इसका मत था कि जीव चौरासी लाख योनियों में चक्र खाते-खाते परम विशुद्ध दशा में आकर तपस्त्री होता है। और मोक्ष पाता है। इससे पहले ही प्रयत्न करके कोई मोक्ष नहीं पा सकता। यह जीवन का रास्ता इतना नपा तुला मानता था कि उसमें अच्छे और बुरे कर्मों से कोई भी अन्तर नहीं पड़ता था। शायद इसीलिए यह संयम पर भी विशेष जोर नहीं देता था। पूर्ण काश्यप वैदिक कर्मकाशड और औग्निषट्यदिक ब्रह्मवाद का विरोधी था। वह न परलोक मानता था, न परलोक में भोगने वाला पाप-पुण्य। इस प्रकार वह स्वर्ग की कल्पना का भी विरोधी था। प्रकृष्ट कात्यायन हर वस्तु को अचल और नित्य मानने वाला था। वह एक प्रकार के नियति वाद का माननेवाला था। वह आत्मा की गति को इतना निश्चित मानता था कि उसमें अपने शुभाशुभ कर्मों द्वारा किसी प्रकार का रद बदल सम्भव नहीं समझता था। सजय वेलाहि पुत सशयवादी था। एक तरह से उसका दर्शन निराशवादी था। निगन्ध नाथपुत्र (महाकावी) पार्श्वनाथ के उत्तराधिकारी, उनके मत के सशोधक और जैन धर्म के बहुत बड़े व्याख्याता थे। ये अपने युग के बहुत बड़े आध्यात्मिक नेता थे। इनका पारिवारिक सम्बन्ध उस काल के मध्य देश के प्रायः सभी प्रमुख राज-खानदानों से था। विन्ध्यसार भी उनका रिश्तेदार था। बुद्ध की साधना-भूमि और सिद्धि-भूमि दोनों ही मगध है। बड़े मजे में कहा जा सकता है कि बौद्ध धर्म की जन्मभूमि मगध है। विन्ध्यसार बुद्ध का भी बहुत बड़ा प्रशासक, भक्त और आश्रयदाता था।

**जैन और बौद्ध धर्म में एकता और मिलता**

बौद्ध धर्म का जन्म मगध में हुआ। जैन धर्म का प्रभाव मगध से

बढ़ा । विम्बिसार ने दोनों को माना, दोनों को सराहा । बौद्ध और जैन दोनों ही धर्म वैदिक याग-यज्ञों के विरोधी थे । दोनों ही ब्रात्य-परम्परा के विकसित सुमन थे । दोनों ने मनुष्य के पुरुषार्थ पर जोर दिया । दोनों ने भावी जन्मों का आधार कर्मों को माना । दोनों ने ब्राह्मण पुरोहितों और उनकी भाषा छान्दस को अस्वीकार किया । किन्तु इस एकता के बावजूद दोनों में कुछ अन्तर भी है । बुद्ध ने प्राचीन श्रमण परम्परा को छोड़कर अपने निये मध्यममार्ग की स्थापना की । पर महावीर ने प्राचीन श्रमण परम्परा—पार्श्वनाथ के मत, उनके विनय और संघ को—स्वीकार किया, उसको परिशुद्ध किया और उसी को माना । बुद्ध ने न अत्यन्त तप को स्वीकार किया और न भोग को । पर महावीर ने तप पर जोर दिया और उसी के लिये ब्रह्मचर्य को भी अनिवार्य कहा । बुद्ध ने नित्य आत्मा को भी नहीं माना । पर महावीर ने साधना और तपस्या द्वारा जीव का—आत्मा का—परम आत्मा होना तक स्वीकार किया । पर दोनों के ब्राह्मण धर्म विरोधी रूप में विशेष अन्तर नहीं हैं ।

### जैन, बौद्ध और जनभाषा

यही नहीं, इस काल में एक और भी बहुत बड़ी कान्ति हुई । ब्रात्यों के अलावा भी एक किस्म का ब्राह्मण-विरोध उस काल में था । वह उपनिषदों का विद्रोह था । पर उपनिषदों का विद्रोह वेदों और ब्राह्मणों के विरुद्ध अभिजात ज्ञनिय वर्ग का विद्रोह था । दोनों की भाषा छान्दस् की भाषा थी, संस्कृत थी । आभिजात्य भाषा संस्कृत थी । पर जब हीन वर्गोंय विद्रोह ने आन्दोलन का रूप लिया, तब जिन, बुद्ध और भगवतों ने अपने संगठनों के द्वारा हीन वर्गों के लिये भी खोल दिये । महावीर और बुद्ध अभिजात वर्ग के थे । परन्तु उनका साभा, उनकी चेतना, उनकी प्रेरणा हीन वर्ग के लिये भी थी । इसीलिए उन्होंने जहाँ ब्राह्मण वर्णश्रम धर्म का विरोध किया, वहाँ उनकी भाषा—देववाणी—संस्कृत पर भी कुठारावात किया । संस्कृत—छान्दस्—के स्थान पर उन्होंने ग्राहृत

और पालि को अपनाया । यह याद रहे कि महावीर और बुद्ध भी राज-कुलोत्पन्न थे । पर ये अभिजातकुलीय उपनिषद् के जानपद राजाओं की माँति संस्कृत में अपने प्रवचन नहीं करते । बल्कि इस काल के आन्दोलन के नेता—महावीर और बुद्ध—सामान्य जनता की भाषा में अपना निर्देश करते हैं । इन दोनों नेताओं ने समझा कि आन्दोलन की प्रेरणा में शब्द सहायक होता है और शब्द ऐसा नहीं कि वह प्रवचन रूप में पूज्य मात्र रहे, वरन् ऐसा कि वह जिनसे कहा जाय, उनके द्वारा समझा जाय और उनको आगे आने के लिये, विकसित होने के लिये प्रेरित करे । जनभाषा—प्राकृत और पालि—स्वामाचिक ही जनान्दोलन की वाणी बनी ।

पर यहाँ भी जैनों और बौद्धों का एक फरक है—एक अन्तर है । पालि उस काल के मध्यदेश की शिष्ट भाषा है—लोक प्रचलित जबान है; जब कि प्राकृत मगध के निम्नवर्ग, निम्नतम वर्ग की भाषा थी, जिसका शिष्ट प्राकृत के रूप में विकास प्रथम शर्ती में हुआ । पालि का संस्कृत से योड़ा ही भेद था, जब कि प्राकृत मगाही से ज्यादा नजदीक और रुस्कृत से योड़ी दूर थी । उस काल की मागधी प्राकृत का ठीक ठीक रूप अब नहीं मिलता । पर भाषा शास्त्री विद्वानों का मत है कि उस काल की मागधी का प्रभाव मगध से पञ्च्छ्रम मिर्जापुर जिले के पूर्वी हिस्से और उच्चाव जिले तक था । इसी कारण इधर की भाषा का नाम अर्ध मागधी पड़ा । पूर्व में मागधी का प्रभाव बंगाल और उड़ीसा तक था । इसी मागधी प्राकृत से आज की अनेक भाषाओं का जन्म हुआ ।

### ब्राह्म्यों का तीर्थ मगध

जैनों और बौद्धों के कारण ही राजगृह तीर्थस्थान बन गया । तीर्थकर महावीर ने विपुलाचल पवते पर निवास किया था और यहीं शेणिक बिन्बिसार को उपदेश दिया था । स्वर्णाचल ( सोनगिरि ), रत्नाचल, वैभार और उदयगिरि में भी जैन धर्म की प्राचीन कीतियों के अनेक

निर्दर्शन भरे पढ़े हैं । बुद्ध ने वैभार पर्वत पर निवास किया था । यहाँ उनका उपदेश सुनने के लिये नगरवासी आते थे । राजगृह के पास ही गृहकूट नामक एक पहाड़ी है । उसके सम्बन्ध में एक कथा है कि मार—मन के असामाजिक भाव—ने गिर्द का रूप धारण कर बुद्ध के प्रिय शिष्य आनन्द को डरवाया था । पर बुद्ध के प्रभाव से उसकी सारी माया व्यर्थ गयी । कहते हैं, उसी समय से इस पहाड़ी का नाम गृहकूट पढ़ा । इस पर्वत पर बुद्धदेव ने भी बहुत बार निवास किया था । महावीर ने राजगृह में अनेक वर्षावास किये थे । राजगृह से कुछ हटकर नालन्दा नामक स्थान है । यहाँ भी महावीर ने दो वर्षावास किया था । बुद्ध के भी यहाँ अनेक संस्मरण हैं । बाद में आगे चलकर इसी नालन्दा में जगत्‌प्रसिद्ध विश्वविद्यालय स्थापित हुआ । इस विश्वविद्यालय के खण्डहर मीलों तक पाये जाते हैं । नालन्दा के पास ही पावापुरी है, जहाँ महावीर का निर्वाण बताया जाता है । यह जैनियों का तीर्थस्थान है । यहाँ एक विशाल और सुन्दर तालाब के बीच में एक सुन्दर मन्दिर है, जिसमें महावीर के पदचिह्न हैं ।

### मगध साम्राज्य का प्रारम्भ

बिम्बिसार का पुत्र अजातशत्रु था । वह बहुत बड़ा महत्वाकांक्षी और साम्राज्यवादी था । उसने अपने पिता बिम्बिसार को कैद कर राज्य प्राप्त किया और अन्त में कैद में ही बिम्बिसार की मृत्यु भी हुई ।

मगध साम्राज्य के ठीक निकट, उसके उत्तर में बज्रियों का महान् संघ राज्य था । अजातशत्रु साम्राज्यवादी था । वह मगध साम्राज्य का प्रसार चाहता था । मगध साम्राज्य के प्रसार के लिये बज्रि संघ का विनाश आवश्यक था ; पर अजातशत्रु के लिये बज्रि संघ का जीतना बड़ा कठिन था । अजातशत्रु ने बज्रि संघ को जीतने का उपाय बुद्ध से जानने की एक चाल चली । वह स्वयं बौद्ध था । बौद्ध धर्म का संरक्षक और सहायक था । इसलिए बुद्ध उसकी चाल में आ भी गये । अजातशत्रु ने अपने मन्त्री वस्तकार को बुद्ध के पास भेजा । वस्तकार ने बुद्ध

से वज्रि संघ जीतने का उपाय जानना चाहा । इस अवसर पर बुद्ध ने अपने प्रिय शिष्य आनन्द से वज्रि संघ के सम्बन्ध में जो प्रश्नोत्तर किये हैं, वह संत्र राज्यों के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण साहित्य का एक ढुकड़ा है । उससे पता लगता है कि इन गण राज्यों का क्या बल था और इनमें क्या निर्वलता थी । यदि बुद्ध अजातशत्रु के मन्त्री वस्तकार के सम्मुख यह चर्चा न करते, तो उनकी इस चर्चा में राजनीति की गन्ध न होती । वह चर्चा साधु होती ; पर दुःख है कि बुद्ध वैसा न कर सके । एक तरह से बुद्ध ने वस्तकार को लद्य कर वह चर्चा की । और उस चर्चा से ही प्रेरित होकर वस्तकार अजातशत्रु की आशा से—और कूट चाल के साथ—वज्रि संघ में गया । वहाँ जाकर उसने बुद्ध की शिद्धा के अनुकूल वज्रि संघ में फूट डालकर वज्रि संघ को कमज़ोर कर दिया । इधर अजातशत्रु ने बड़ी युक्ति से विशाल सेना एकत्र की । उसे विघ्वासक अल-शख्तों से सम्पन्न किया । कहा जाता है कि 'मटाशिला कंटक' और 'रथनूसल' नामक भयकर हथियारों के साथ मौका देखकर, वस्तकार के इशारे पर उसने वज्रि संघ पर हमला किया । कुछ अर्द्ध तक तो युद्ध चला, पर अन्त में अजातशत्रु की विजय हुई । वैशाली का विनाश हो गया ।

अजातशत्रु ने काशी, कोसल और अवन्ति तक को जीत लिया । वस्तुतः उसी ने सर्व प्रथम मगध राष्ट्र को एक साम्राज्य का रूप दिया । युद्ध में जीतने के बाद उसकी नीति उदार होती थी । धार्मिक हृषि से भी उसकी नीति उदार थी । उसने सभी धर्मों के प्रति आदर और सत्कार का व्यवहार किया ; पर इसमें जरा भी सन्देह नहीं कि अजातशत्रु की विशेष अद्वा बुद्ध के प्रति थी । बुद्ध के प्रति इसी अद्वा के कारण अजातशत्रु ने बुद्धकी मृत्यु के बाद, उनकी अस्थियों को पाने का प्रयत्न किया और बुद्ध की अस्थियों का एक अंश उसे मिला भी । बुद्ध की अस्थियों के उस एक अंश को प्राप्त कर उसने राजगृह के पास करण्डवेणुवन के पूरब में, उस अस्थि पर एक लूप खड़ा करवाया । यह लूप बुद्ध के प्रति

अजातशत्रु की शक्ति का प्रमाण है। अजातशत्रु के ही काल में राजगृह की सतपरिणिति में बौद्ध धर्म को प्रथम संगीति हुई थी, जिसमें सभी प्रणिद बौद्ध भिन्न एकत्र हुए थे और जिसमें बुद्ध को शिखाओं का प्रथम संकलन हुआ। बुद्ध के प्रिय शिष्य आनन्द को मृत्यु के बाद आनन्द का भी सूप, बुद्ध सूप के पास ही बना।

### धर्म और राज्य

अजातशत्रु स्वयं बौद्ध था। पर उसकी नीति जैन धर्म के प्रति भी इतनी उदार थी कि उसे कुछ लोग जैन भाव कहते हैं। अजातशत्रु विजेता और साम्राज्यवादी था। उसने मगध साम्राज्य का विस्तार भी किया। अजातशत्रु के प्रभाव से उसके साम्राज्य के साथ ही साथ बौद्ध और जैन धर्म का प्रभाव भी बढ़ा। डॉ० याकोबी आदि कुछ विद्वानों का मत है कि बौद्ध और जैन धर्म के स्थानीय रूप से उठकर व्यापक महत्व प्राप्त करने का मुख्य कारण इन दोनों धर्मों को महत्वपूर्ण साम्राज्यवादी राजाओं का सहयोग था। अतः यह नहीं कहा जा सकता कि धार्मिक सम्प्रदायों के विकास और प्रसार में राजाओं और प्रभु वर्ग का हाथ नहीं होता। बस्तुतः बिना राजाशय के धार्मिक सम्प्रदायों का महत्वपूर्ण प्रसार सम्भव ही नहीं होता। और कोई भी राजा अपनी राजनीति के विशद जाकर धर्मों को प्रश्रय नहीं देता। विभिन्न सार के रूप को देखकर बुद्ध ने बौद्ध संघ में दासों, कृषियों और सैनिकों का प्रवेश रोक दिया था। अरोक जरूर एक ऐसा समाटथा, जिसने अपने धर्म के लिए अपनी राजनीति की उपेक्षा की; पर इसी कारण उसके बाद ही उसका साम्राज्य नष्ट हो गया।

### उदयि और पाटलिपुत्र

अजातशत्रु ने अपने पिता को कैद कर राजन्यकि को प्राप्त किया था। अन्त में अजातशत्रु भी अपने पुत्र उदयि अथवा उदयिमद्र के नड्यन्त्रों द्वारा मारा गया। उदयिमद्र कोई बहुत बड़ा विजेता अथवा नेतृपति नहीं था; पर निर्माण कार्य में इसको विशेष दिज्जवली थी।

अजातशत्रु ने मगध साम्राज्य को बहुत बड़ा दिया था । उसने वज्र संघ को नष्ट भी कर दिया था ; पर फिर भी वज्र संघ की जातियाँ जीवित थीं । लिच्छवि जाति बहुत ही तेजोदास थी । उसने पुनः करबट लेना शुरू कर दिया था । इसीलिए लिच्छवि जाति पर नजर रखने के लिये अजातशत्रु ने उनकी सीमा के पास गंगा और सोन के कोण में, जहाँ पाटल बृक्षों की संख्या अधिक थी, उसी पाटलिग्राम में एक किला भी बनवाया था । अब, जब उदयि के काल में साम्राज्य की आवश्यकताएँ बढ़ी, तो उदयि ने उसी दुर्ग के पास पाटलि ग्राम में एक बहुत बड़ा नगर बसा दिया । इस नगर का नाम पाटलिपुत्र पड़ा । उदयि ने अपनी राजधानी राजशह से हटाकर इसी पाटलिपुत्र में स्थापित की । उदयि पर जैन धर्म का काफी प्रभाव था । उसने पाटलिपुत्र में जैन मन्दिर भी बनवाया था ; पर उदयि के काल में मगध राजनीतिक घट्यन्त्रों का केन्द्र बन गया था । जनता में भी इन पितृधाती राजाओं के प्रति भूषण का भाव छा रहा था । ब्राह्मण धर्म के प्रति उपेक्षा के भाव के कारण भी मगध राज्य बदनाम हो रहा था । अतः घट्यन्त्रों द्वारा ही उदयि का भी अन्त हुआ । इस प्रकार नाग जाति के हर्यक वश का मगध के सिंहासन से अन्त हो गया ।

### शिशुनाग वंश

हर्यक वश के अन्त के बाद मगध में शिशुनाग का उदय हुआ । कहा जाता है कि हर्यक वश के दीले और विलासी शासन से तंग आकर मगध की प्रजा ने काशी प्रदेश के शासक शिशुनाग को, जो वहाँ मगध साम्राज्य का प्रतिनिधि था, बुलाकर मगध की गही पर बैठाया । पर इसका सीधा और स्पष्ट अर्थ यह है कि शिशुनाग को मगध के घट्यन्त्र का पता था, वह कुशल राजनीतिज्ञ था, उसने कुशलतापूर्वक घट्यन्त्रों का सूत्र अपने हाथ में कर लिया और फिर इस खूबी से उसने मगध साम्राज्य पर अधिकार कर लिया कि कहीं बुद्ध विरोध भी न हो सका ।

शिशुनाग नामवंशो था । सम्भवतः इसीलिए उसे आसानी से सफलता भी मिल गयी । शिशुनाग बड़ा और और विजेता था । उसने अबन्ती पर आक्रमण करके उसे जीतकर मगध साम्राज्य में भिजा लिया । बाद में चत्स और कोसल की भी यही गति हुई । इस प्रकार शिशुनाग ने मगध साम्राज्य का विस्तार किया । आगे चलकर विलासिता के कारण शिशुनाग के कुल का भी विनाश हुआ और नन्दवंश को प्रतिष्ठा हुई ।

### नन्दों का मगध

नन्दवंश में नन्दिवर्धन बड़ा प्रतापी और विजयी राजा था । उसने कलिंग देश को जीत कर मगध में पिलाया था । विजय की स्मृति में कलिंग से जिन प्रतिमा भी लाया था । कश्मीर का भी उसी ने विजय किया था । पंजाब के प्रदेश पर भी उसी का प्रभाव था ; पर कश्मीर और पंजाब को उसने मगध साम्राज्य में भिलाया नहीं था । नन्दिवर्धन (अथवा कालाशाक ?) ने वैशाली में अपनी दूसरी राजधानी बनायी थी । इसी के राज्यकाल में वैशाली में बौद्धों की दूसरी संगीति हुई था । यह संगीति अथवा सम्मेलन महीनों तक होता रहा, जिसमें उस काल के प्रायः सभों प्रमुख बोद्ध भिन्नुश्रा ने भाग लिया । इसी संगीति में बौद्ध धर्म के दो स्पष्ट सम्प्रदाय हो गये—एक को येरवाद कहते हैं और दूसरे को महासाधिक । इन्हीं दोनों से आगे चलकर हीनयान और महायान सम्प्रदाय की उत्पत्ति हुई । उपनिषद् काल से भारतवर्ष में यह परम्परा चलो आ रही थी कि राजा राजसभा करके प्रसिद्ध विद्वानों का आदर करता था । नन्दिवर्धन के काल में भी यह सभा हुई थी । राजशैखर ने भी अपने काव्यमीमांसा में स्पष्ट कहा है कि उस काल में पाटिलिपुत्र में शास्त्रकार परीक्षा हुआ करती थी । इस परीक्षा में वर्ष, उपवर्ष, पाणिनि पिंगल और व्याढी नामक विद्वान् उसीर्थे होकर सम्मानित हुए थे । उपवर्ष वर्ष के माईं थे । वर्ष को पाणिनि का गुरु कहा जाता है । पिंगल, चून्द शास्त्र के पंडित थे । व्याढी ने व्याकरण का संग्रह ग्रंथ लिखा था ।

परन्तु यह सर्वथा निर्विवाद तथ्य नहीं है। पाणिनि को निश्चित रूप से इसी काल में नहीं भी माना जा सकता। पर इतना स्पष्ट है कि पाणिनि इस काल में सर्व प्रसिद्ध बैध्याकरण थे।

नन्दवंश का प्रतापी और महा भयानक राजा महापद्मनन्द था। यहाँ यह स्पष्ट कर देना परम आवश्यक है कि नन्दवंश और खास कर महापद्मनन्द के सम्बन्ध में तरह तरह की कथाएँ हैं। ऐसे तो मगध के छत्रियों को उच्च छत्रिय माना ही नहीं गया है; पर इस मान्यता में सिर्फ ब्राह्मण विरोध था। अर्थात् मगध के छत्रिय ब्रात्य थे—इस कारण ब्राह्मण मान्यता में उनके प्रति हीन दृष्टि थी; पर महापद्मनन्द के सम्बन्ध में ऐसी ही बात नहीं थी। जैन अनुश्रुति के अनुसार वह नाई द्वारा वेश्या में उत्पन्न था। पुराण उसे शूद्रा में उत्पन्न नन्दिवर्धन का पुत्र बताते हैं। समसामयिक ग्रीक लेखक उसे नाई बताते हैं। ग्रीक लेखक के अनुसार रानी एक नाई पर अनुरक्ष थी। पहले रानी की कृपा से वह राजकुमारों का अभिभावक बना और बाद में राजा को मार कर स्वयं राजा बन बैठा।

### भारतीय इतिहास में क्रान्ति और प्रति-क्रान्ति

नवनन्दों का भारतीय इतिहास-क्षेत्र में आगमन बड़े महत्व का है। वस्तुतः वह केवल ऐतिहासिक महत्व की ही वस्तु नहीं, एक प्रकार की सामाजिक क्रान्ति का भी प्रतीक है। उसकी पृष्ठभूमि और कारणों की ओर प्यान कम लोगों का गया है। केवल ब्राह्मण, केवल छत्रिय या ब्राह्मण-छत्रिय प्रधान सत्ता के बावजूद किस प्रकार शूद्र सत्ता दोनों की स्थानापन्थ हो गयी, यह भारतीय इतिहास की असाधारण पहेली है। परन्तु जैसे पहेली बूझ जाने के बाद उसकी असाधारणता नितान्त सामान्य हो जाती है, उसी प्रकार शूद्र सत्ता के आविभाव की पृष्ठभूमि भी नन्दों के उत्कर्ष को सर्वथा स्वाभाविक बना देती है।

ब्राह्मण छत्रियों के पारस्परिक चिरकालिक संघर्ष ने देश में जिम्मेदारियों को सम्भव कर दिया था, उसी की एकान्त प्रेरणा इस तीसरे शासक

वर्ग की उत्पत्ति थी। वह तीसरा वर्ग उपेक्षित शूद्र वर्ग था। जैन-बौद्ध और मार्गकर्त धर्मों ने जो अपने संघों और संगठनों के द्वार बर्णेतर वर्ग के लिये स्वेच्छा दिये, तो हीन वर्ग निचले स्तर से ऊपर की ओर उठा और चूँकि संख्या में वह प्रचुर था, सतह पर सर्वथा छु गया। वैष्णव-मार्गवादों की रिथति की ओर पार्श्विनि ने भी संकेत किया है। और चाहे वह दैयाकरण बुद्ध कालीन अथवा हुद्ध का पश्चात कालीन रहा हो, वह अपने उस सूत्र में बुद्ध के पूर्ववर्ती समाज की ओर निर्देश करता है, जिसमें चाहुदेव और अर्जुन के अनुयायियों की दर्जता है। बाह्द्रध्येय-ब्रह्मदत्तो-हर्षकोशैशुनागों की उत्कट ज्ञात्र परम्परा ने ब्राह्मणों को उसी हीन वर्ग की ओर देखने और उनसे साझा करने को मजबूर कर दिया था, जिन्हें ब्राह्मणेतर संघों और संगठनों ने प्रश्न दिया था। यह अकारण नहीं है कि शूद्र नन्द के तीन मन्त्रियों में कम से कम दो ब्राह्मण थे। महापश्चनन्द द्वाग सारे ज्ञात्रिय राष्ट्रों का उन्मूलन और पारिणामतः उसका 'सर्वज्ञानतक' बिशुद विशेष विनियोजन की परिणति थे। और उस परिणति की पूर्व परम्परा परशुराम ने स्थापित की थी, जो निश्चय नन्द के ब्राह्मण मन्त्रियों को स्वाभाविक ग्राह्य हुई। यह असम्भव नहीं कि उन्होंने उस दिशा के नन्द-नियोजित प्रथासों को न केवल प्रोत्साहित किया हो, वरन् स्वयंम् ही नियोजित और प्रस्तुत किया हो। यद्यपि वे भी इस बात को न समझ सके थे कि हीन वर्गों का उत्कर्ष, जिसका प्रतीक नन्द शासन था, ब्राह्मण-ज्ञात्रिय दोनों के लिये नितान्त आपत्तिजनक हो सकता था। धर्मसूत्रों और गृहसूत्रों की परम्परा विनष्ट हो चली। चरित्रहीनों के ग्राति सतर्क हड़ि कम जोर पढ़ गयी थी। व्यभिचारियों और चरित्रहीनों का बहु बहु था। इससे समाज में एक विद्वोभ मुहआ और परिशाम पुनर्गठित स्पातं चेतना हुई, जिसका मुगठित रूप आगे चलकर झुँगों के शासन काल में खुला। हीन वर्ग के उस उत्कर्ष को, जो भास्त्रीय आकाश पर तीक्ष्णा से छाता आ रहा था, कौटिल्य ने सहज

ही देख लिया था । इसी कारण वह मनीषी ब्राह्मण-चत्रिय समझौते द्वारा उस हीनकर्मा हीन वर्ग के अपर्कर्ष में लगा—प्रवृत्त हुआ । यह स्वयं कुछ अकारण नहीं कि नन्द के ब्राह्मण कर्मा ब्राह्मण मन्त्री को ब्राह्मण परम्परा ने 'राज्ञस' कहा हो—इसके द्वारा हीन व्यवस्था की स्थापना हो रही थी,—और राज्ञसकर्मा चाणक्य को ब्राह्मण । जो भी हो भट्टिकाव्यम् को 'क्षात्रं द्विजत्वं च परस्परार्थम्', की पिछली परम्परा बहुत पूर्व चाणक्य-चन्द्रगुप्त के ही समय चरितार्थ हुई और उन्होंने हीनवर्गीय नन्दों को उखाड़ फेंका ।

चाणक्य पाश्चात्यिक दैत्य परम्परा का ब्राह्मण रूप था और इस परम्परा की शक्ति उत्तरोत्तर बल-संगठन पर ही संचित होती है । चाणक्य ने उस बल संचय पर पूरा जोर देकर भारत का पहला प्रबल पराकर्मी साम्राज्य स्थापित किया । ऐसा बल संगठन राजा को केन्द्र मानकर चलता है—मन्त्रिमण्डल की शक्ति-नश्वरता और सम्माट की निरंकुशता उसका प्राण होती है । परन्तु वही केन्द्र जब कमजोर पड़ जाता है, तब साम्राज्य के प्रान्त विलर जाते हैं । चन्द्रगुप्त और विन्दुसार की चाणक्यानुकूल हृति ने उस शक्ति को कुछ काल सम्हाल रखा, परन्तु चन्द्रगुप्त के ही अन्त्यकाल और अशोक-परवर्ती शासन में जो शास्त्र-चर्चा तीर्ण हुई और ब्राह्मण-चत्रिय परस्पर विरोध अपने स्वामात्रिक रूप में फिर स्पष्ट हुआ, तब पिछला सर्वर्ष (दन्द) अपनी शृंखला को कहियाँ एक बार और गढ़ चला । उसी दन्द की परिणति शुगों की सफल कान्ति में हुई । उसका केन्द्र भौयों का पुरोहित और सेनापति, भारद्वाज गोत्री ब्राह्मण पुष्पमित्र शुंग और मेधाप्रसिद्ध वैद्यकरण पतंजलि था । 'महाभाष्य' में स्थान-स्थान पर जो राजनीतिक सूक्ष्म सूत्रों के संकेत मिलते हैं, वे अन्यथा नहीं, और न यही कि वह प्रकाशद दार्शनिक और सूक्षकार सम्माट पुष्पमित्र शुंग के अश्वमेष का जड़त्विज था । कान्ति नितान्त सफल निष्ठय हुई और राज्यसत्ता भौय-जैन-बौद्ध

न्द्रियों के हाथ से निकल कर ब्राह्मणों के हाथ में चढ़ी गयी, जो शुंगों-कल्पों-सातवाहनों के कुल में सदियों बनी रही सही, पर स्वतः है कि वह सत्ता नितान्त जागरूक होकर सम्भालने की थी और हम जानते हैं कि उसी प्रकार सम्भाली भी गयी, क्योंकि पुष्यमित्र को निरन्तर सेना से साजिष्य रखना पड़ा, जिससे उसने 'सप्ताट' संज्ञा की उपेक्षा कर 'सेनापति' का विश्व अधिक श्रेष्ठस्कर समझा ।

### मगध में घड़यन्त्रों का जोर और परिणाम

प्रारम्भ से ही मगध में राजतन्त्री शासनपद्धति थी । इस शासन-पद्धति में राजा के ही हाथों में सारी शक्ति केन्द्रित होती है । इसके केन्द्र में राजा होता है । हिन्दू समाज की आश्रम-व्यवस्था के अनुसार तो राजा अपने ज्येष्ठ पुत्र को राज्य सौप कर बानप्रस्थ अथवा सन्यास ले भी सकता था—यद्यपि उसमें भी बहुत कम लोगों ने इस नियम का पालन किया । पर मगध में तो वर्णाश्रम व्यवस्था के प्रति उपेक्षा अथवा हीन भाव था । अतः विभिन्नार के समय में तो उसकी चर्चा ही व्यर्थ है । विभिन्नार के कई पुत्र अमरण हो गये ; पर विभिन्नार सिंहासन पर ही बना रहा । आखिर उसके एक महत्वाकांक्षी पुत्र अजातशत्रु से नहीं रहा गया । उसने घड़यन्त्र कर विभिन्नार को कैद किया और फिर राजशासन पर अधिकार कर लिया । कैद में ही विभिन्नार की मृत्यु हो गयी । अजातशत्रु के पुत्र उदयि ने भी उसी घाट अजातशत्रु को उतारा । उदयि की मौत वही गति हुई । ऐन और बौद्ध प्रभाव ने राजाश्रम पाकर सामाजिक परिवर्तन किया । फिर उसकी प्रतिक्रिया ने नन्दों के काल में व्यापक वैमाने पर घड़यन्त्र का सहारा लिया । परिणामतः शूद्र-सत्ता स्थापित हो गयी । यदि समाज के क्रमिक विकास के परिणामस्वरूप निम्न श्रेणी ऊपर आती है, तो उसमें सम्यता और संस्कृति का योग रहता है । यदि समाजबाही कानून ढारा निम्न श्रेणी ऊपर आती है—जिसकी कर्स-खूब अतीत में सम्भवना नहीं थी—तो उसमें विरोधी शक्तियों, विरोधी वर्गों के विष के दौड़ तोड़

दिए जाते हैं । किन्तु यदि घबड़न्होंद्वारा कोई अधिक घटना घट जाती है, तो उसका कुछ दूसरा ही परिणाम होता है । नन्दों के काल में यही हुआ । फर चन्द्रगुप्त मौर्य ने चाशक्य की सहायता से नन्दों का नाश कर उस सम्पूर्ण परिस्थिति को पलट दिया ।

### पश्चिमी भारत की राजनीतिक स्थिति

जिस समय मगध में साम्राज्य गठित हो रहा था, उस समय भारत का पश्चिमी हिस्सा छोटे छोटे चौबीस राज्यों में विभक्त और असंगठित पड़ा था । इस पश्चिमी हिस्से में ही—तच्छिला में—एक महान विश्वविद्यालय था । उस विश्वविद्यालय ने बड़े बड़े विद्वान् और योद्धा पैदा किये थे । पाणिनि उसी विश्वविद्यालय का था । विभिन्न सार की गणिका का पुत्र जीवक उसी विश्वविद्यालय का था, जो अपने युग का श्रेष्ठ वैद्य था । स्वयं चाशक्य भी उसी विश्वविद्यालय का था और भी बड़े योद्धा उसी विश्वविद्यालय के थे । पर जिस हिस्से में यह विश्वविद्यालय था, उसके निवासी दीर और बलवान् होकर भी राजनीतिज्ञता के अभाव में शक्तिशाली आक्रमणकारी के खात्य बन गये । यही कारण है कि महान सेनापति सिकन्दर की सेना भारत के पश्चिमी इलाके में घुस आयी । उस समय तच्छिला के शासक आम्भी ने भारत का दर्वाजा सिकन्दर के हिते खोला दिया । इस प्रकार देशद्रोही आम्भी की अवसरवादिता से सिकन्दर भारत में घुस आया । पुरु ने सिकन्दर का सामना किया ; पर कुशज्ज सैन्य संचालन और राजनीतिज्ञता के अभाव में पुरु भी परास्त हो गया । परास्त पुरु की आत्मा भी शिर गयी । वह सिकन्दर का एक सरदार बन गया । उसने देश की भूमि को सिकन्दर के बोडों से रोदवाना चाहा ; पर उसी समय एक बहुत बड़ी दीवार सिकन्दर के सामने खड़ी हो गयी ।

### पुराणिया चन्द्रगुप्त मौर्य

सिकन्दर के शिविर में एक पुराणिया शुवक आया । वह कुछ समय

तक सिकन्दर के साथ रहा ; पर उस युवक की चाल-दाल तुङ्ग मिल फिल्म की थी । सिकन्दर अब तक आमी और पुरुषों से तो मिल चुका था ; पर उसने अचरज से देखा—इस निराले युवक की ओर । बीक लेखकों के अनुसार वह युवक अत्यन्त हस था । वह नतमस्तक होकर सिकन्दर से नहीं मिला, बल्कि अपनी आँकड़ के साथ मिला । इस पुराविया युवक की आँकड़ सिकन्दर को सह न हो सकी । वह इसे गिरफ्तार करने की ताक में था कि युवक उसकी नीयत ताढ़ गया और बीक कैम्प छोड़ कर उसके पीछे चला गया । यह युवक ही चन्द्रगुप्त मौर्य था, जिसने मध्य साम्राज्य के विनाश का बीड़ा उठाया था ।

चन्द्रगुप्त मौर्य मोरिय गणतन्त्र का रहने वाला था । यह गणतन्त्र गोरखपुर जिले में पड़ता है । मोरिय जाति का उल्लेख तुद और महावीर के समय में भी मिलता है । महावीर के बारह गणधरों में एक मोरिय पुत्र भी थे । इससे इतना पता लगता है कि मोरिय जाति में विद्या और चीरता, शास्त्र और शास्त्र का समादर था । चन्द्रगुप्त मौर्य का नन्दों से सधर्ष कैसे हुआ, इसका ठीक-ठीक पता नहीं लगता । पर ऐसा अनुमान लगता है कि चन्द्रगुप्त पहले नन्दों की सेना में सरदार था । तुदि और पराक्रम से धीरे-धीरे उसकी पद-मर्यादा बढ़नी गई । सम्भवतः वह सेनापति हो गया । आगे चलकर राजा से किसी बात पर मतभेद हो गया । वह राजा के मन का न कर सका । राजा उससे नाराज हो गया । बिना ऐसा हुए नन्द राजा से उसकी टक्कर सम्भव नहीं । और बिना ऐसा हुए नन्दों के नाश के उपयुक्त उसका होना भी सम्भव नहीं । पर चूँकि वह ब्रात्य द्वितीय था, और नन्दों का आभित भी रह चुका था । नन्द हीनकुल तथा हीनचरित्र थे, इसलिए अनुभ्रुति में चन्द्रगुप्त के नाम के साथ अपवाद रह गया ।

### महान राजनीतिक चाणक्य

चाणक्य का नाम विष्वगुप्त था । उसका एक नाम कौटिल्य भी

या । वह अपने समय में नीतिशास्त्र का बहुत बड़ा परिवर्त था । वह उस समय की भारतीय राजनीति का बहुत बड़ा ज्ञाता था । अपने धुन में मस्त वह मगध आ गया था । मगध में श्रेष्ठ विद्वानों का समादर होता था । चाणक्य भी महान विद्वान् था । सम्प्रवतः वह भी अपनी विद्या का समादर चाहता था । ब्राह्मण तो वह था ही, एक दिन मगध सम्ब्राट नन्द राजा की भुक्तिशाला में जाकर संच-ब्राह्मण के आसन पर बैठ गया । नन्द द्वारा यह जानने पर कि वह कौन है, चाणक्य ने उत्तर दिया—‘यह मैं हूँ !’ यद्यपि इससे चाणक्य का स्वाभिमान और तेज टपकता था ; पर नन्द तो सत्कार से होत था । उसने भिराहियों को आज्ञा दी कि इस ब्राह्मण को निकाल चाहर किया जाय । किन्तु चाणक्य भाँट ब्राह्मण नहीं ; तेजस्वी ब्राह्मण था । उसने अपने कमंडलु को इन्द्रकील पर पटक कर क्रोध से कहा—‘राजा उद्धत हो गया है, समुद्र से पिरी हुई पृथ्वी नन्द का नाश देख ले ।’ नन्द ने चाणक्य को गिरफ्तार करना चाहा ; पर चाणक्य तो चाणक्य था—नोन्हा ग्रतिभा का धनो । वह निकल गया ।

### चाणक्य और चन्द्रगुप्त की एकता

चाणक्य को एक ऐसे निर्मांक बहादुर और योग्य सेनापति को जहरत थी, जो मृत्यु की उपेक्षा करके मगध साम्राज्य से टकरा सके, और चन्द्रगुप्त को एक ऐसे नीतिनिष्ठ राजनीतिज्ञ की जहरत थी, जो साम्राज्य की राजनीति को विफल करके प्रजा का विश्वास अर्जित कर सके । दोनों एक दूसरे के पूरक थे, इसलिए दोनों मिल गये । चाणक्य और चन्द्रगुप्त के चरित्र को देख कर ऐसा लगता है कि उस समय भारतीय मेधा और भारतीय वीरता आज की भाँति कुंठित नहीं हुई थी, जो शक्तिशाली के सामने छुटने टेक देती । उस समय भारतीय जीवन और समाज में पुरुषार्थ की महत्ता थी । ब्राह्मण चाणक्य और सेनापति चन्द्रगुप्त पुरुषार्थी थे । साधनहीन होते हुए भी दोनों धुन के पक्के थे,

दोनों को अपने उद्देश्य का भलीभांति ज्ञान था, दोनों अपने उद्देश्य के लिए मरना जानते थे। इसलिए इतिहास बताता है कि वे सफल हुए।

राज्य पर अधिकार करने के लिए सेना की ज़रूरत होती है और सेना एकत्र करने के लिए धन की। कुछ धन एकत्र कर दोनों ने विन्ध्याटवी के किसी भाग से मगध साम्राज्य को ललकारा; पर ठिक न सके। हार गये। इस सम्बन्ध की एक कहानी प्रसिद्ध है। एक बार चन्द्रगुप्त और चाणक्य वेघ बदलकर धूम रहे थे। वे एक गाँव में एक बृद्ध के पार टिके थे। बृद्ध अपने लड़के को रोटी बना कर लिला रही थी। लड़का जरा शौकीन था। रोटी के किनारों को छोड़ कर बीच का हिस्सा खाता जा रहा था। इस पर बृद्धा ने कहा—‘तू भी चन्द्रगुप्त जैसा मूर्ख है, जिसने राज लेने का प्रयत्न किया।’ लड़के ने कहा—‘मौं, चन्द्रगुप्त ने राज्य लेने में मूर्खता क्या की और मैं क्या कर रहा हूँ।’ इस पर माता ने कहा—‘चन्द्रगुप्त सम्राट बनने चला था; पर सीमा प्रदेश को दखल किये बिना, राज्य के मध्य भाग पर हमला करना शुरू कर दिया। और दोनों और के दबाव में पड़कर पिस गया—हार गया। और तू किनारे से रोटी न खाकर बीच का खाता है। इससे रोटी के भाप से हाथ जलेगा।’ चन्द्रगुप्त और चाणक्य ने इसे सुना, उनकी आँखें खुली। दोनों भारत के पश्चिमी भाग में चले गये, जो मगध साम्राज्य के बाहर था, जहाँ की स्थिति से चाणक्य पूर्ण परिचित था—जिस प्रदेश का वह रहने वाला था। जहाँ भाड़े के सैनिक आसानी से मिल सकते थे। जहाँ सिकन्दर की सेना उथल-पुथल मचाये थी। वही चन्द्रगुप्त सिकन्दर से मिला। उसे मगध की ओर बढ़ने के लिये ललकारा भी—पर अपने स्वाभिमान को रख कर। बाद में उसी प्रदेश में रहकर चन्द्रगुप्त और चाणक्य ने सिकन्दर की सेना के पीछे विद्रोह करवाना शुरू किया। इससे सिकन्दर की उस्सभन्ने बढ़ गयी। वह परेशान हुआ। उसकी सेना यक गयी थी।

जात्यार होकर सिकन्दर को बापस लौटना पड़ा । पर इन सारी परिवेशियों से फायदा उठाकर चन्द्रगुप्त और चाणक्य ने उधर के राजाओं को मिला कर तथा और भी प्रयत्न कर अपनी सेना बुटखी । और उन्होंने मगध पर आक्रमण कर दिया ।

### राजनीतिक दाव पेंच—

मगध-सम्माट नन्द के पास सेना की कमी नहीं थी । वह उप्रसेन था ही । उसके पास हथियारों की भी कमी नहीं थी । पर चन्द्रगुप्त ने ग्रीक विजेता सिकन्दर के युद्ध-कौशल को देखा और समझा था ; किन्तु यह भी कोई बड़ी बात नहीं थी । चन्द्रगुप्त के पास सब से बड़ी बात थी चाणक्य की नीति-निपुणता और नन्दा की सबसे बड़ी कमजोरी—उनका प्रजा में अप्रिय होना । मगध-सम्माट नन्द अपने ही भिन्नों और कुटुम्बियों का असन्तुष्ट किये हुए थे, जिस कारण उनके घर का भेद बाहर जा सकता था । और चाणक्य के गुप्तचर उनके घर में घुसे थे । नन्द राजे संस्कार विहीन, उद्दश्ड, क्रूर और लोभी प्रसिद्ध थे । इसलिए जनता पर प्रभाव रखने वाला समुदाय—उस युग के पढ़े लिखे और जनता में प्रतिष्ठित लोग, नन्द राजाओं के विरुद्ध थे—वे सभी चन्द्रगुप्त से सहानुभूति रखते थे । इस कारण मगध साम्राज्य की सेना—नन्दों की सेना—पीछे हटती गयी और चन्द्रगुप्त मगध में घुसता चला गया । पर अब चन्द्रगुप्त का सामना नन्द राजाओं से नहीं, मगध-साम्राज्य के प्रधान मन्त्री ब्राह्मण राज्ञिस से भी था, जिसके बड़ों ने पतित नन्दों को सिंहासन पर बैठाया था । राज्ञिस अपूर्व प्रतिभावान् राजनीतिज्ञ था । राजनीति में उसके हाथ सबे थे । उसने चन्द्रगुप्त के सहायक राजाओं में फूट डालवा कर उन्हें आपस में ही लड़वा देने का प्रयत्न किया । पर चन्द्रगुप्त का सहायक चाणक्य था—अपने नीति-ज्ञान द्वारा भविष्य द्रष्टा, जिसे सम्पूर्ण सामाजिक स्थिति और राजनीति का ज्ञान था । चाणक्य ने अपनी कूटनीति निपुणता द्वारा राज्ञिस की नीति को बेकार कर दिया । मगध में राज्ञिस ने चन्द्रगुप्त की हत्या का

बहुयन्त्र रचा ; पर चन्द्रगुप्त का कवच तो चाणक्य था । राज्य का घार खाली गया ; किन्तु राज्यस ने विजेता चन्द्रगुप्त के सामने छुट्टे नहीं ठेके । वह चाढ़कार और अवसरसेवी, ऐसा ब्राह्मण नहीं था जो मतखंड निष्कर्ष जाने पर साथी को घोखा दे दिया करते हैं । उसने अपने परिवार को चन्द्रनदास नामक अपने एक श्रेष्ठो मित्र के यहाँ लिंगा दिया और स्थान चन्द्रगुप्त को विनष्ट करने का प्रयत्न शुरू किया । इबर चाणक्य बहुत ही दूरदर्शी राजनीतिज्ञ था । वह चन्द्रगुप्त मौर्य के राज्य को स्थायी करके सम्पूर्ण भारतवर्ष को एक और महान करना चाहता था । उसने लिंगदर के हमले के समय पंजाब में देखा था कि छोटे-छोटे राज्य कुछ कर नहीं सकते—छोटे-छोटे राज्यों का अस्तित्व देश के लिये खतरा है । इसीलिए वह राज्यस को मिलाकर, मगध को आन्तरिक राजनीति की ओर से निश्चिन्त होकर सम्पूर्ण भारत को एक करना चाहता था । इसीलिए उसने अपने गुप्तचरों द्वारा यह खबर फैला दी कि चूंकि चन्द्रनदास राज्यस का पता नहीं बता रहा है, इसलिए उसको सूली की सबा दी जायगी । राज्यस अपने मित्र की दुर्दशा को सहन नहीं कर सका । मुद्रा-राज्यस के अनुसार राज्यस ने चन्द्रगुप्त को आत्मसमर्पण कर दिया और चाणक्य ने प्रकट होकर उसे मिला लिया । पर मुद्राराज्यस नाटक की यह घटना कहा तक सत्य है, यह नहीं कहा जा सकता, क्योंकि चन्द्रगुप्त के मन्त्रियों में किसी राज्यस का पता नहीं चलता । किन्तु इससे इतना संकेत मिलता है कि जिस ब्राह्मण राजनीति ने ब्रात्य द्वित्रिय राज्य के विश्वद शूद्र राज्य की स्थापना की थी ; उसने राजनीतिज्ञ चाणक्य के ब्राह्मण-द्वित्रिय सार्के की राजनीति को समर्प्या और स्वीकार कर लिया—यद्यपि ज्यादा देर तक यह राजनीति न टिक सकी ।

### पराजय के चिह्न मिटाए

चन्द्रगुप्त मौर्य ने ३२१ ई० पू० में नन्दों का समूल नाशकर मगध के सिंहासन पर अधिकार किया । मगध पर अधिकार करने के बाद चन्द्रगुप्त

और चाणक्य ने पंजाब की ओर ध्यान दिया । सिकन्दर पंजाब से बापस जा चुका था ; पर उसने अपने जीते हुए राज्यों में गवर्नर रख लेवे थे। चन्द्रगुप्त ने ग्रीक गवर्नरों को मार डाला अथवा देश से बाहर कर दिया । उसने ग्रीक विजय के सम्पूर्ण चिह्नों तक को पंजाब से मिटा दिया । चाणक्य उधर का ही रहने वाला था । वह तद्दशिला विश्वविद्यालय में आचार्य भी रह चुका था । उसके प्रयत्न से ग्रीक विजय के संत्मरण भी नष्ट हो गए । यही कारण है कि ग्रीक विजय के साहित्यिक प्रभाग भी नहीं मिलते ।

### महान् भारत

नन्द साम्राज्य को नष्ट कर, ग्रीक विजय के सम्पूर्ण चिह्नों तक को समाप्त कर चाणक्य और चन्द्रगुप्त अपने मुख्य राजनीतिक उद्देश्य की ओर फिरे । वह मुख्य राजनीतिक उद्देश्य था सम्पूर्ण भारतवर्ष को एक सबल राष्ट्र के रूप में परिणत कर देना । इसके लिये उन्होंने सम्पूर्ण भारतवर्ष का दिविजय किया । कुछ इतिहासकारों का कहना है कि उसने सम्पूर्ण भारत को रौंद डाला । छोटे छोटे राज्यों को जीत कर मगध साम्राज्य में मिला लिया । चन्द्रगुप्त की तलबार अभी रुकी नहीं थी कि सिकन्दर का उत्तराधिकारी सेल्यूक्स ने सिकन्दर के जीते प्रदेशों को पुनः बापस लेने की गरज से भारत पर इमला किया । पर इस समय भारतवर्ष छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त और असंगठित नहीं था । सम्पूर्ण भारतीय राजनीति का सूत्र रुचारुक सतत जागरूक कूटनीतिश चाणक्य था । भारतीय भूमि और नीतिकी रद्द । सिहपराक्रम चन्द्रगुप्त की तलबार करती थी । देश की पश्चिमोत्तर सीमा अच्छी तरह सुरक्षित थी । अतः चन्द्रगुप्त की सेना ने आगे बढ़कर सेल्यूक्स को रोक दिया । युद्ध हुआ । पर इस बार ग्रीकों को जिस सेना से पाला पड़ा, वह पहले से एकदम भिज थी । चन्द्रगुप्त के अभ्यस्त लड़ाके सैनिकों ने सेल्यूक्स को बुरी तरह परास्त कर दिया । सन्धि हुई । सेल्यूक्स को अपने और चार ग्रान्त

चन्द्रगुप्त को देने पड़े । विजयी चन्द्रगुप्त उदार था । सेल्यूक्स ने अपनी पुत्री चन्द्रगुप्त को व्याह दी । दोनों में मैत्री हो गयी । अब भारत की पश्चिमी सीमा हिन्दूकुश तक पहुँच गयी । चन्द्रगुप्त के साम्राज्य की सीमा पश्चिमोत्तर में हिन्दूकुश से दक्षिण-पूर्व में बंगाल की खाड़ी, और उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में मैसूर राज्य तक थी । इस प्रकार चन्द्रगुप्त मौर्य और चाणक्य के नेतृत्व में भारतवर्ष का सबसे पहला मगध में केन्द्रस्थ साम्राज्य संगठित हुआ ।

### कौटिलीय अर्थशास्त्र

चाणक्य तक्षशिला के पास का रहने वाला वैदिक ब्राह्मण था । पर उसका कर्मक्षेत्र ब्रात्य-भूमि मगध था । कूटनीति में वह प्रख्यात था वह उद्देश्य को देखने वाला था—साध्य-साधन के चक्कर से दूर । पर उसका स्वयं का जीवन साधु का जीवन था—त्याग, अपरिग्रह और संयम का प्रतीक । उसके सामने महान भारत का नक्शा था । इसीलिए वह राजनीति में आया । उसने चन्द्रगुप्त के साम्राज्य का निर्माण किया और उस साम्राज्य के लिये उसी ने व्यवस्था भी दी । उसने गर्व के साथ लिखा—“जिसने वडे अमर्ष के साथ शास्त्र का, शास्त्र का और नन्द राजा के हाथ में गयी हुई पृथ्वी का उद्धार किया, उसी ने इस शास्त्र की रचना की ।” और भी “सब शास्त्रों का अनुगम करके और प्रयोग समझ कर कौटिल्य ने नरेन्द्र के लिये यह शासन की विधि ( व्यवस्था ) बनायी ।” इस विधि व्यवस्था का नाम है—“अर्थशास्त्र” । इसे कौटिलीय अर्थशास्त्र भी कहते हैं ।

### शासन का रूप

सम्राट् चन्द्रगुप्त मौर्य के शासन काल में मगध साम्राज्य का केन्द्र सम्राट् था । सम्राट् के ही हाथ में सम्पूर्ण शक्ति केन्द्रित थी । पर शासन की सुविधा के लिये चाणक्य ने मगध साम्राज्य को सात अंगों में विभक्त

कर दिया था । वे सातो अंग हस प्रकार थे—राजा, अमात्य जनपद, दुर्ग, कोष, सेना और मित्र । इन अंगों के अलावा साम्राज्य की सीमा पच चक्रों से सम्बद्ध थी ।

१. उत्तर पथ—इसमें कम्बोज, गान्धार, काश्मीर, अफगानिस्तान, पश्चिम आदि के प्रदेश शामिल थे । इसकी राजधानी तद्देशिला थी ।
  २. पश्चिमी चक्र—इसमें काठियावाड़ गुजरात से लगाकर राज पूताना, मालवा आदि के प्रदेश शामिल थे । उज्जैन इसकी राजधानी थी ।
  ३. दक्षिण पथ—विन्ध्याचल से नीचे का साह प्रदेश । इसकी राजधानी सुवर्ण गिरि थी ।
  ४. कलिंग—इसकी राजधानी तोसली थी ।
  ५. मध्यदेश—इसमें विहार, बगाड़, और उत्तर प्रदेश शामिल थे । इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी ।
- चार चक्रों का शासन तो राजकुमार अथवा राजामात्य करते थे । पर पाचवें चक्र—अर्थात्-मध्यदेश का शासन स्वयं सम्भाट देखते थे ।
- मगध साम्राज्य के पाचों चक्रों की और स्वयं सम्भाट की सहायता के लिये मन्त्रिमण्डल का काम सलाह देना तो या । पर शासक उसे मानने के लिये चाह्य नहीं थे । वस्तुतः उसको मानना न मानना सम्भाट की वैष्णविकित शक्ति पर निर्भर था । पर आम तौर से सम्भाट मन्त्रिमण्डल की राय को मानते थे । मन्त्रिमण्डल के कार्य थे—१. राज्य द्वारा प्रस्तावित कामों को प्रारम्भ करना, २. जो काम प्रारम्भ हो गये हों, उनको पूरा करना, ३. जो काम पूरे हो गये हों, उनमें और भी वृद्धि करना और ४. सब कामों की पूर्ति के लिये साधन एकत्र करना ।

सेना, न्याय और व्यवहार को सम्मान देखते थे। साम्राज्य के उच्च-पदस्थ पदाधिकारियों की नियुक्ति, परराष्ट्र नीति तथा गुपचर विभाग का संचालन और साम्राज्य भर के आय-व्यय का नियोजण स्वयं सम्मान् चन्द्रगुप्त मौर्य करते थे। इस प्रकार सम्पूर्ण मगध साम्राज्य की वास्तविक शक्ति सम्मान् में केन्द्रित थी।

### पाटलिपुत्र का नगरशासन

मौर्य सुग्र में पाटलिपुत्र मगध साम्राज्य को राजधानी थी। इसके चारों ओर लकड़ों की चौड़ी प्राचीर थी। इस प्राचीर के भग्नावशेष पट्ठा के कुमड़हार ग्राम के पास रेलवे लाइन के उस पार एक गहु में मिला है। प्राचीर के पास गहरी खाई थी। इस खाई की गहराई ४५ किट ओर चौड़ाई ६०० फिट थी। प्राचीरों से लगे हुए ५३० बुर्ज थे। नगर में प्रवेश करने के लिये ६४ फाटक थे।

पाटलिपुत्र नगर के शासन के लिये ६ समितियों का एक सनूह या और प्रत्येक समिति में ५-५ सदस्य थे। ये समितियों इस प्रकार थीं :—

१. शिल्पकला समिति—इसका काम या औद्योगिक कलाओं की देख-रेख करना, उनके औजारों को सम्हाल रखना, उद्योग सामग्रियों का प्रबन्ध करना, कारीगरों के पारिश्रमिक का निर्णय करना और कलाकारों की रक्षा करना। कलाकारों (कारीगरों) की इतनी इफाजत की जाती थी कि उनका अंग-भंग करने वाले को मृत्युदण्ड तक को सजा का विधान था।
२. वैदेशिक समिति—इसका काम या विदेशियों की गति-विधि पर नजर रखना। विदेशियों के निवास, भोजन, औषध और आत्येष्ठि-क्रिया का भी प्रबन्ध यह समिति करती थी। मूद

विदेशियों के पास जो धन मिलता था, उसे उनके वारिसों को दे दिया जाता था ।

३. अनन्तना समिति—इसका काम या नगर की जनता की जन्म-मृत्यु का लेखा-जोखा रखना । यह लेखा-जोखा बहुत व्यापक तौर से होता था । पेशा, जाति, वर्ण, दास, दासी, नौकर, परिवार के प्राणियों की पूरी सूच्या—लड़के, लड़कियाँ लड़ी, पुरुष आदि—आमदनी और खर्च सभी की तालिका इस विभाग में प्रस्तुत रहती थी ।
४. वाणिज्य व्यवसाय समिति—इसका काम व्यापार पर देत-रेख रखना था । एक से अधिक वस्तुओं का व्यापार करने वालों को उसी औसत से कर देना पड़ता था ।
५. वस्तु निरीक्षण समिति—यह समिति व्यवसायियों पर सतर्क दृष्टि रखती थी । औद्योगिक वस्तुओं के उत्पादकों के लिये नये और पुराने माल का मिश्रण अपराध करार दिया गया था । अनुचित लाभ लेने वालों को दण्ड भी दिया जाता था ।
६. कर समिति—इस समिति का काम या चुगी बसूल करना ; कुछ वस्तुओं पर विक्रय कर भी लगता था । उसका बसूल करना भी इसी समिति का काम था । इससे बचने का प्रयत्न करने वाले को मृत्युदण्ड तक की सजा दी जाती थी ।

इनके अलावा सार्वजनिक भोजनालय, पुलिस, जेल, मनोरजन और नागरिकों के स्वास्थ्य पर भी ध्यान रखना इस नागरिक शासन के अन्दर था । इस प्रकार सदस्यों की नगर सभा सम्पूर्ण नगर का सम्यक प्रकारण शासन करती थी । इतिहास के विद्वानों का मत है कि जिस प्रकार का नगर शासन पाठिलिपुत्र में था, उसी प्रकार का शासन देश के और और अन्य महत्वपूर्ण नगरों में रहा होगा ।

## सेना का संगठन

चन्द्रगुप्त मौर्य ने 'सर्वद्वान्तक' और 'उप्रसेन' नन्दों का नाश किया था, जिसका कोष अनन्त था और जिसकी सैनिक शक्ति अपार थी ; उसने पश्चात् से ग्रीक विजेता सिकन्दर के आक्रमण-चिन्हों तक को निःशेष कर दिया था ; सेल्यूक्स को परास्त किया था ; और सम्पूर्ण भारत को जीतकर भारतभूमि में प्रवहा पराकर्मी साम्राज्य कायम किया था । राजनीतिक दृष्टि से उसके सभी कार्य एक से एक बढ़ कर थे । पर हस्ती लिए उसकी सैनिक शक्ति प्रबल थी । महाभारत आदि प्रन्थों तथा और भी भारतीय साहित्य में 'पदाति. हथदल, रथदल और गजदल' की चतुरगिरी सेना का उल्लेख है । चन्द्रगुप्त मौर्य ने नौ सेना का भी बड़ा अच्छा संगठन किया था । यद्यपि सेना के सभी अग्रणी क सेनापति थे ; पर उसका सम्पूर्ण अधिकार सम्भाट के हाथों में केन्द्रित था । चन्द्रगुप्त उस युग के श्रेष्ठ सेनापति भी थे । सैन्य संगठन के तीन उभयभाग थे १ दुर्ग और रक्षा २ अख्य शब्द निर्माण और शब्दागार तथा ३ सेना । चन्द्रगुप्त मौर्य की चतुरगिरी सेना म पदाति ६ लाख, अश्वारोही ३० हजार, हाथी ३५ हजार और रथ २४ हजार थे । इनके अलावा नौ सेना भी थी । इस विशाल सेना के प्रबन्ध के लिये युद्ध का एक स्वतन्त्र विभाग था । इसके छत्तास सदस्य थे, जो छुँछ़ को समितियों म विभक्त थे । ये समितियाँ और उनके प्रबन्ध के अधिकारण निम्नलिखित थे :—

समिति सं० १	नौ सेना ।
समिति सं० २	सैन्य साधन प्रस्तुत करने वाला अधिकारण ।
समिति सं० ३	पदाति ।
समिति सं० ४	अश्व ।
समिति सं० ५	रथ ।
समिति सं० ६	गज ।

## प्रजा की सेवा

चन्द्रगुप्त का जीवन व्यस्त, घटनाबहुत और रक्ताक्षित ही नहीं था । उसके जीवन में ऐश्वर्य भी था । उसने अपने निवास के लिये विशाल प्रासाद का निर्माण कराया था । वह प्रासाद एक सुविलृत उद्यान के बीचोबीच खड़ा था । उसके स्तम्भ सुनहरे थे और उद्यान में कृत्रिम मत्स्य-हृद तथा निभृत कुञ्ज थे । उसकी विस्मयजनक विभूति के सामने शूषा और एकबताना के द्वारानी महलों का सौन्दर्य भी फीका पढ़ जाता था । प्रायः काष्ठ का बना होने के कारण प्रकृति के संहारक कारणों से वह नो नष्ट हो गया, पर पटना के पास कुमड़हार गाँव में उसके आधार के भग्नावशेष आब भी है । चन्द्रगुप्त के राजदरबार के पत्थर के गोल और चिकने खम्मे बहाँ मिले हैं ।

चन्द्रगुप्त ने लगभग चौबीस वर्ष राज्य किया । उसका राज्य बहुत संगठित और सुव्यस्थित था । साम्राज्य के दिविच केंद्रों और नगरों को मिलाने के लिये सड़के बनी हुई थी । सड़कों के किनारे बृक्ष लगे थे । स्थान स्थान पर पान्थशालाएँ थीं । सिचाई के लिये नहरे बनी थी । बहुत से चिकित्सालय थे, जहाँ मुफ्त औषधियाँ मिलती थीं—सभी स्थानों पर वैद्यों का प्रबन्ध था । नगरों की सफाई और भोजन की शुद्धता पर विशेष ध्यान दिया जाता था । शिक्षा का भी प्रबन्ध था और शिक्षकों की वृत्ति बँधी थी । मुराइ में मुःर्शन भील चन्द्रगुप्त के प्रान्तीय गवर्नर पुष्पगुप्त ने बनवाया था ।

## सिह पराक्रम चन्द्रगुप्त का अन्तिम जीवन

महान पराक्रमी चन्द्रगुप्त, जिसके जीवन का प्रारम्भ एक मैनिक से हुआ था और जिसने एक बहुत बड़े साम्राज्य को धराशायी किया तथा जिसने स्वयं एक बहुत बड़े साम्राज्य का निर्माण किया; जिसका बाह्य जीवन बहुत ही व्यस्त और सख्त था; पर उसका अन्तर कुछ और था! जीवन के अन्तिम प्रहर में वह अन्तर्मुख हो गया । जिसने तलबार से

भारतवर्ष की सीमा खीची थी, जो खून की नदी में तैरता था, जिसने जीवन में सभी सुख-ऐश्वर्य का भोग किया, वह अन्त में अहिंसक हो गया । उसके चारों ओर बुद्ध और महावीर की अहिंसा का बातावरण था । उसके जन्मस्थान मोरिय गणराज्य में महावीर को शिद्धा प्रतिष्ठित हो चुकी थी । शायद किशोरावस्था में उसके मन पर जैन धर्म का प्रभाव पड़ा था । कहा जाता है कि उसके राज्यकाल में मगध में धोर अकाल पड़ा—शायद उसे रोकने के प्रयत्न में वह असफल रहा । इसके बाद वह जैनाचार्य भद्रबाहु के साथ मैसूर की ओर चला गया, जहाँ उसने अनशन करके शरीर का त्याग किया । इतिहासकार चाहे इस पर दो राय रखें, पर यह मृत्यु निश्चय ही महावीर चन्द्रगुप्त के अनुकूल थी । जबानी में मृत्यु से आँख मिन्नीनी का खेल खेला ; मृत्यु को सदा सहचरी समझा, उसने अन्त में मृत्यु को अपने निकट बैठाकर, प्रसन्नता पूर्वक उस अनुपम सुन्दरी को तृप्त किया ।

### विन्दुसार

चन्द्रगुप्त के बाद उसका पुत्र विन्दुसार २६७ ई० पू० में मगध साम्राज्य के सिंहासन पर बैठा । चन्द्रगुप्त के बाद भी चाणक्य जीवित था और कुछ काल तक उसीने विन्दुसार के साम्राज्य का नीति-संचालन किया । विन्दुसार की राजनीति भी चाणक्य के सिद्धान्तों पर आधारित है । उसने दक्षिणापथ के उन राज्यों को जीतकर मगध साम्राज्य में मिलाया, जो चन्द्रगुप्त के अभियान में बच गये थे । परं फिर भी उसने चन्द्रगुप्त जैसा कोई महान कार्य नहीं किया । उसके काल में भारतीय साम्राज्य की नींव और भी गहरी हो गयी ।

### विजेता अशोक

विन्दुसार की मृत्यु के बाद कुछ समय तक मगध साम्राज्य में अव्यवस्था थी । उसके दो पुत्रो—सुषीम और अशोक में साम्राज्य के

लिये संघर्ष हुआ ; पर सुशीय बड़ा होकर भी लोकप्रिय नहीं था । साम्राज्य के मन्त्रियों का भी समर्थन उसे प्राप्त नहीं था । इस कारण उसका अन्त कैसे हुआ, इसका वृचान्त भी शेष नहीं रहा । अशोक ने २७२ ई० पू० में मगध साम्राज्य पर अधिकार किया और साम्राज्य की अव्यवस्थाओं को शान्तकर २६८ ई० पू० में अपना राज्याभिषेक करवाया ।

अशोक असाधारण प्रतिभा का असाधारण सम्भाट् था । उस जैसा राजा ससार में न कभी पहले हुआ था और न उसके बाद मे । ऐसा लगता है कि प्रकृति ने अशोक को ढालकर सच्चा तोड़ दिया । अशोक में उसके पितामह चन्द्रगुप्त के यौवन की वीरता और उसके वार्द्धक्य की विरक्ति दोनों थी । दोनों का विकसित रूप था । चन्द्रगुप्त ने अपने पराक्रम से मगध साम्राज्य कायम किया था । अशोक ने अपने पराक्रम और चरित्र से सुशीम को लाव कर मगध साम्राज्य को प्राप्त किया । आठ वर्ष तक उसने अपने विरोधियों को समाप्त किया । विरोधियों से निपट कर उसने अपनी द्वात्र परम्परा की ओर ध्यान दिया । वह परम्परा थी दिग्विजय की परम्परा ।

कलिंग कभी मगध साम्राज्य के अन्दर था ; पर देखते ही देखते वह स्वतन्त्र हो गया । सम्भवतः कलिंग उस समय स्वतन्त्र हुआ जैसे अशोक अपनी आन्तरिक राजनीति में व्यस्त था । इसोलिए उधर से कुट्टी पा कर उसने कलिंग की ओर ध्यान दिया । अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कर दिया । कलिंग की भी सैन्य-शक्ति प्रबल थी । उनमें असाधारण स्वदेश प्रेम था । उन्होंने मगध से डट कर मोर्चा लिया । भीषण युद्ध हुआ । कलिंग फिर भी न मुक्ता । सम्भाट् अशोक कुपित हो उठा । संप्राप्त और भी भीषण हुआ । लाशों से धरती पट गयी । डेढ़ लाख सैनिक पकड़े गये, एक लाख मारे गये और इससे कहीं ज्यादा युद्ध से उत्पन्न रोगों के शिकार हुए । करीब करीब सारा कलिंग सम्भाट् अशोक की तज्ज्वार के नीचे आ गया ।

## महाम अशोक

अशोक विजयी हुआ; पर सून मे नहाकर। उसके चारों ओर वेदना, चीत्कार, बुझद्वा और हा-हाकर था। कलिंग ने अपनी स्वाधीनता के लिये अपना सब कुछ होम दिया था। इतना बड़ा त्याग बेकार न गया। उसने महान अशोक के मुसंल्हत मानस में करणा का रूप लिया। कूर-कर्नी अशोक का मानव-दृदय करणा से अभिभूत हो गया। उसका अन्तर्रतम अपने कृत्य की दारणता से हिल गया। दिग्विजयी अशोक सहसा बदल गया। उसने अपनी हृद मुढ़ी से तलवार को अलग कर दिया और रक्त-सिंक बाहुओं को उठाकर प्रतिशा की—‘अब से वह सुद्ध द्वारा विजय न करेगा, वह प्रेम द्वारा दिग्विजय करेगा, धर्म विजय करेगा।’ इस प्रकार अशोक का भेरी-धोष, धर्म-धोष में बदल गया। हिसा का स्थान प्रेम, भ्रातृभाव और प्राणिमात्र की सेवा ने लिया। बौद्ध अनुश्रुतियों का कथन है कि अशोक सुषीम-पुत्र निग्रोष के कारण बौद्ध धर्म की ओर आकृष्ट हुआ और उपगुप्त द्वारा दीक्षित। परन्तु जिस घटना ने वस्तुतः उसको बदल दिया, वह कलिंग युद्ध था।

अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया; पर वह सम्प्रदायिक बौद्ध न भी नहीं था। अशोक का धर्म था—संयम, भावशुद्धि, कृतशत्या, हृदभक्ति, अन्तर और बाहर की सफाई, साधुता, दया, दान, सत्य; मातृ-पिता, गुरु और बड़े बूढ़ों के प्रति सेवा और अद्वा; ब्राह्मणों, अमरणों, बन्धु-बान्धवों, दुखियों आदि के प्रति दान और उचित आदर। अशोक न केवल साम्प्रदायिकता से ऊपर था, बल्कि प्रारम्भ में तो उसने साम्प्रदायिकता को कम करने का प्रयत्न भी किया। उस कलिंग समाज में कहाह के मुख्य कारण साम्प्रदायिक होते थे; इसीलिए अशोक ने अपनी प्रजा में सहिष्णुवा का उपदेश किया। स्वर्य तो वह सारे धर्मों के आदर करता ही था, उसने अपनी प्रजा से भी वैसा ही आचरण कराना चाहा। इसीलिए उसने अपने शिलालेख में सुदृश्या कि सारे धर्मों के

सारभूत तत्वों की वृद्धि से बढ़कर आन्य कोइ दान नहीं है। सभी सम्प्रदायों का आदर करना चाहिए। बहुश्रुतता बहुत बड़ा गुण है। आदर्मी में जब बहुश्रुतता होगी तो वह दूसरों का आदर कर सकेगा। इसीलिए उसने बहुश्रुतता पर जोर दिया। स्वयं अशोक ने सारे सम्प्रदायों का आदर किया। आजीविकों के लिए दरी-गह खुदवाए, ब्राह्मणों, अमरणों, निर्ग्रन्थों आदि सभी के साथ—समान और अद्वापूर्ण आचरण किया। उसने कहा कि चूंकि सारे धर्म संयम और चित्तशुद्धि पर जोर देते हैं, इसलिए सभी में सद्भावना होनी चाहिए। पर फिर भी वह बौद्ध था। उसका विशेष मुकाब बौद्ध धर्म की ओर ही था।

### अशोक के धार्मिक कार्य

अशोक दृढ़ चरित्र और महावीर था। धर्म विजय में भी उसकी नीति में बीरता थी। उस काल में धर्म के नाम पर नाना प्रकार की रुदियों का प्रचलन था। समाज में सनातन ब्राह्मण धर्म का जोर था। यहों और पूजाश्रों में पशुवर्जि दी जाती थी। अशोक को प्राणिवध अनुचित और अधर्म मालूम हुआ। उसने दृढ़तापूर्वक सारे यशानुष्ठानों में प्राणिवध को अपनी आज्ञा द्वारा रोक दिया। आज के इस प्रगतिशील युग में हिन्दूकोडविल के सम्बन्ध में वर्षों से बहस हो रही है। पर अशोक कायर नीतियों की भाँति बहसी नहीं था, बलाचल देखकर चलता था। जिसे सही समझता था, उस पर स्वयं भी चलता था और अपनी प्रजा को भी चलाता था। उसने धर्म की दिशा में ब्राह्मण धर्म की ही अनुचित बातों का विरोध नहीं किया। बौद्धधर्म के दोषों का भी दृढ़तापूर्वक विरोध किया। उसने बौद्धधर्म की तीसरी संगीति बुखाई। बौद्धधर्म के निष्प्रित रूप को निर्धारित कराया। और बौद्ध सभ में जो टोंगो-पालगड़ी भिज्जु छुस गये थे, पीलाबल पहनकर जो मजे में हलुआ पूढ़ी उड़ा रहे थे, कहा जाता है कि ऐसे साठ हजार भिज्जुओं का बल छीनकर उन्हें संघ से निकलवा दिया। युद्ध में हथियारों से लैस

शत्रु से लड़ने में जैसी वीरता आवश्यक है, धार्मिक सुधार में उससे ज्यादा वीरता की बर्सरत पड़ती है ।

अशोक महाबीर था, उसका साम्राज्य सुविस्तृत था, उसका चित्त साधु था और उसका हृदय भी विशाल था । उसके हृदय में मानव मात्र के लिये ही नहीं, प्राणिमात्र के लिये करणा थी । उसने मनुष्यों का ही नहीं पशुओं का भी ध्यान रखा । मनुष्य की चिकित्सा तो किसी न किसी रूप में होती आई थी । परन्तु पशुओं की चिकित्सा पर उससे पहले किसी ने ध्यान नहीं दिया था । अशोक की उदारता मनुष्य जगत को लाभ कर, मूक पशुजगत में भी चली गयी । उसने देश-विदेश में जो औषधालय खोले, उसमें मूक और रुग्ण पशुओं का भी प्रब्रह्म किया । अपने ही साम्राज्य में नहीं, उसके बाहर दक्षिण के स्वतन्त्र राज्यों और यूरोप, एशिया तथा अफ्रीका के ग्रीक राज्यों में सर्वत्र उसने मानव और पशु चिकित्सा की घोजना की । जहा जहाँ चिकित्सा सम्बन्धी औषधियाँ न थीं, वहाँ अन्य स्थानों से जड़ी बूटी के बीज और कलाम मंगाकर लगाए गए । चोल, पाण्ड्य, सतियपुत्र और केरलपुत्र (सम्भवतः सिंहल भी), सीरिया का अंतियोक (अन्तियोकस् द्वितीय महान् २६१-४७ ई० पू०), मिस का तुरभाया (तालेमी द्वितीय फाइलाडेल्फस् २८५-४६ ई० पू०), मकदूनिया का अंतेकिन (ऐन्तिगोनस् गोनेतस् २७८-३६ ई० पू०), साइरित का मग (मेगस् ३००-२५८ ई० पू०) और एपिरस का अलिकसुदरो (अलेग्जैंडर २७२-२४८ ई० पू०) आदि द्वारा अन्य देशों में अशोक ने मनुष्यों और पशुओं के रोग-मोचन का प्रयत्न किया ।

### बौद्ध धर्म की तीसरी संगीति

बौद्धों की संगीति एक प्रकार की बौद्धसंघ की असाधारण बैठक थी, जो बहुत महत्व के निर्णयों के लिये हुआ करती थी । बुद्ध के निर्वाण से अशोक के पहले तक ऐसल दो बार संगीति बुलाई गयी थी । अशोक के समय तक बौद्धधर्म में अनेक सम्प्रदाय और मतमता तर बन गये थे,

जिनमें परस्पर झगड़े होते रहते थे । इन्हीं भगवाँ को मिथने के लिये अपने अभियेक के सत्रहवें वर्ष में अशोक ने पाटलिपुत्र में तीसरी संगीति तुलाई । इसके अध्यक्ष मोगलिपुत्र निस्त थे । संगीति की इस बैठक का बौद्ध धर्म के इतिहास से और भारतवर्ष के इतिहास से बहुत धना सम्बन्ध है । इसी संगीति में विदेशों के लिये कुछ धर्म-दूत मनोनीत किए गए । काश्मीर, गन्धार, हिमालय के देश, महिषमण्डल, सुवर्ण भूमि, महाराष्ट्र, यवनन्देश और लका आदि को कमशः मञ्जभान्तिक, नार्तिकम, महादेव, सोन उत्तर, महाधर्मरक्षित, महारक्षित और मदेन्द्र भेजे गए । इन प्रचारकों ने इन विविध देशों में बौद्धधर्म का प्रचार किया । इस प्रकार इन सभी विदेशों से भारत का धना सम्बन्ध हुआ—बौद्धधर्म विश्व व्यापक धर्म बना ।

अशोक ने धर्म प्रचार के लिये अपनी शासन-व्यवस्था में भी परिवर्तन किया । मौर्य शासन बहुत कठोर था । उसकी रचना धर्म-प्रचार के लिये नहीं, साम्राज्य विस्तार के लिये हुई थी । इसलिये अशोक ने अपने धर्म प्रचार के अनुकूल उसे कोमल किया । धर्म महामात्र की नई नियुक्ति की । राज्याधिकारियों द्वारा भी धार्मिक कार्यों को प्रोत्साहित कराने का काम लिया ।

### अशोक की कलाप्रियता

अशोक महान निर्माता भी था । राज-प्रासाद, स्तूप और दरीशह, वास्तु और भास्कर्य के अप्रतिम प्रतीक, हृद और छेन-प्रणालिकाएँ, कूप और तरुसेवित राजपथ, विश्वामिश्राद्वारा और आम्रवाटिकाओं का उसने व्यापक पैमाने पर निर्माण करवाया । अनुश्रुतियों के अनुसार उसी ने कश्मीर के श्रीनगर और नैपाल के ललितपाटन का निर्माण करवाया था । उसने अपने पितामह चन्द्रगुप्त के बनवाये राज-प्रसाद में बहुत परिवर्तन करवाया था । ये परिवर्तन भी इतने महान थे कि पाचवीं सदी के प्रारम्भ का चीनी यात्री उसे देखकर दग रह गया । उसने लिखा:—

“राज-प्रासाद और भवन नगर के बीचों बीच कला की ही मौति आज  
मी स्वदे हैं। उनका निर्माण अशोक के द्वारा प्रयुक्त देवो ने किया था,  
जिन्होंने पत्थर के ऊपर पत्थर रखे, दीवारें और द्वार लगे किये, उत्तरचन  
और तद्दण कार्य सम्पादित किये, जो इस धरती पर मनुष्य नहीं कर सकते।”  
यही नहीं सम्माट् अशोक के सबसे महत्वपूर्ण निर्माण कार्यों में प्रस्तर स्तम्भ  
और अभिलेख है। इन स्तम्भों की कला अप्रतिम है और इनका आश्चर्य  
जनक ‘फिनिश’ भारतीय वास्तु का गौरव। ये स्तम्भ ऊँचाई में प्रायः  
पचास फीट और बजन में प्रायः पचास टन के हैं। पर ये सभी एक ही  
पत्थर के हैं और चुनार में बनाकर बाहर ले जाए गये हैं। ये मोम बत्ती  
की भाँति नीचे मोटे ऊपर पतले और निष्कलक हैं। इनके दो भाग  
हैं, नीचे का दण्ड और ऊपर का मल्तक। मल्तक कं भाग है—नीचे  
घंट्यनुमा आकृति अथवा अधोमुख कमल, बीच का ड्रम और ऊपर की  
कोरी पशुमूर्ति। ड्रम के ऊपर अनेक पशु और चक्रादि की आकृतियों  
चनी होती हैं, ऊपर सिंह, वृषभ, अश्व तथा गज आदि में से कोई एक  
है। सारनाथ के स्तम्भ पर चार सिंह बने हुए हैं। इन पशुओं की शिराएँ  
साफ निकली हुई और सजीब हैं। इन पर ऐसी चमकीली पालिश है कि  
ये स्तम्भ धातु के बने मालूम होते हैं। यह पालिश मौर्य कालीन है, जो  
अशोक के बाद सदैव के लिये उठ गयी। मौर्य काल में भारत का ईरान  
आदि देशों से धना मैत्री सम्बन्ध था; आपस में आदान-प्रदान था। इस  
आदान-प्रदान का प्रभाव इन कलाओं पर भी पड़ा है। अशोक के  
पहले अभिलेखों की प्रथा भरत में नहीं थी। पर ईरान में स्तम्भों और  
चट्टानों पर प्रशस्तियाँ तथा घोषणाएँ खुदती थी। देवानांप्रिय अशोक का  
अपने लिए सम्बोधन भी ईरानी अनुकरण पर है। सम्माट् अशोक महान  
उदार थे। उन्होंने जो भी अच्छी वस्तु जहाँ से मिली, उसे अपना लिया।  
इसी कारण वे सरलता से इस ईरानी कला को स्वीकार कर सके।

साम्प्रदायिक दृष्टि से उदार होते हुए भी अशोक बौद्ध थे। साम्प्रदा-

यिक पद्मपात से बचने के सतत प्रयत्न के बावजूद भी बौद्धधर्म के प्रति उनका ज्यादा मुकाब था । इसलिए अन्य सम्प्रदायों में उनकी आलोचना भी हुई । बौद्धधर्म को बराबर दान देते रहने में उन्होंने कोष की ओर भी व्यान न दिया । इसी कारण उनकी दानवृत्ति पर प्रधान मन्त्री राधागुप्त को नियन्त्रण रखना पड़ा । इस कारण सम्प्राट् अशोक बहुत दुखी हुए । इसी दुख में उन्होंने शरीर छोड़ दिया ।

### अशोक की नीति की आलोचना—

मौर्य साम्राज्य शकि से अर्जित था । उसे च द्रगुप्त की मुजाओं ने और नीति-निष्ठात चाणक्य को मेधा ने खड़ा किया था । विन्दुसार को भी युद्धों से कम ही फुर्सत मिली थी । अनेक जनपदों और संघ-राज्यों को तोड़ कर उसने मगध साम्राज्य में मिलाया था । पर उस समय भारतीय जीवन में स्वामिमान और शान की मात्रा भी भरपूर थी । कलिंग कुछ समय तक तो मगध साम्राज्य में था । किन्तु विन्दुसार की मृत्यु से अशोक के राज्याभिषेक की अल्प अवधि में ही मौका मिलते ही उसने मगध साम्राज्य का जुआ अपने कन्धे से उतार फैका । बाद में उसे मगध साम्राज्य में मिलाने के लिये सम्प्राट् अशोक को विकट संग्राम करना पड़ा । कलिंग ने भी अपना सब कुछ होम कर मगध साम्राज्य का सामना किया । ऐसी थी, उस समय भारतीय जीवन में स्वाधीनता की प्यास । पर सिकन्दर की ठोकरों के बाद एक साम्राज्य के अन्तर्गत देश के सभी हिस्मों को लाकर, सम्पूर्ण भारत को एक राष्ट्र करना भी परम आवश्यक था । चन्द्रगुप्त और चाणक्य की यही नीति थी । मौर्य साम्राज्य में यह पराक्रमपूर्ण प्रयत्न विन्दुसार के समय तक चला । इसीलिए विन्दुसार ने अपना विश्व अभियान ( शत्रु को मारने वाला ) रखा । पर अशोक के काल में कलिंग ने मौर्यों की सैनिक नीति को अपने प्राणों की बाजी लगा कर चुनौती दी । विजेता अशोक ने भी कलिंग को कुचल दिया ।

पर अशोक महान था—महान धार्मिक हो नहीं, योद्धा भी, नीतिह भी । उसने कलिंगविजय के ब्रवसर पर समझ लिया कि अब सैनिक नीति ठीक नहीं । सम्मवतः इसलिए भी उसने मौर्यों की सैनिक नीति को छमा नीति में बदला दिया । और जब तक अशोक जीवित था, उसकी छमा नीति से साम्राज्य के पाये लिसके नहीं । इससे भी सिद्ध है कि अशोक तक छमा नीति बुरी नहीं थी । पर बुरा या अशोक का राष्ट्रधर्म की सीमा तक बीद्र धर्म को स्वीकार कर लेना । यह ठीक है कि अशोक मगध के बातावरण से बाध्य थे । विम्बिसार से लेकर अशोक तक मगध में जैन श्रथवा बीद्र प्रभाव छाया था । सभी राजाओं पर एक न एक धर्म का प्रभाव था । पर यह भी सच है कि किसी ने तलवार अलग नहीं रखी थी । अजातशत्रु ने तो विजय किये थे । किसी ने राष्ट्रीय ममता और शत्रुघ्नी भावना को शिथिल नहीं पढ़ने दिया था । यही कारण था कि जैन और बीद्र धर्म की अहिंसा के प्रभाव के रहते हुए भी मगध साम्राज्य बढ़ता गया । पर सम्राट अशोक ने तो उस समय सम्पूर्ण रूप से तलवार अलग कर दी, जब साम्राज्य का एक मात्र आधार ही दण्ड माना जाता था । सम्राट चन्द्रगुप्त ने चाहे जैन धर्म की साधना के अनुकूल अनशन करके शरीर न भी त्वाग हो पर इतना तो मानना ही पड़ेगा कि उस पर भी जैन धर्म का प्रभाव था । पर उसने जैन धर्म को व्यक्तिगत रूप से निभाया, उसे राष्ट्रधर्म नहीं बना दिया । किन्तु सम्राट अशोक ने तो बीद्र धर्म को राष्ट्रधर्म की सीमा तक चढ़ा दिया । साम्राज्य की एक मात्र शक्ति तलवार को अलग कर दिया । यह ठीक है कि अशोक ने अपने काल तक मगध साम्राज्य को अच्छुरण रखा । पर अहिंसा के कारण यह नहीं हुआ; बल्कि यह इसलिए हुआ कि अशोक चन्द्रगुप्त और विन्दुसार के बाद की कड़ी था—जीवन में युद्धविजेता और शक्ति का प्रतीक था । उसके काल तक शक्ति की धाक थी । पर उसके मरते ही मौर्य साम्राज्य के तार-तार चिखर गये ।

### अशोक के परवर्ती मौर्य—

अशोक की मृत्यु के बाद ही आनंद मगध से अलग हो गया । अब मौर्य साम्राज्य की राजनीति दण्ड-दुर्बल थी । अब वह अशोक नहीं था, जो कलिंग की मौति ही आनंद को भी पुनः मगध में रख लेता । दण्ड से रक्षित साम्राज्य, दण्ड के अभाव में विसरने लगा । अशोक के उत्तराधिकारी बैने और कायर ही नहीं, कमजोर भी थे । अशोक के तुरत बाद कुण्ठल ( सुयथ ) के काल में ही अशोक का पुत्र जालौक कश्मीर में मगध से अलग हो गया । दशरथ ( बन्धुपालित ) के काल में कलिंग भी मगध से अलग हो गया । जैसे इन बैने मौर्यों के हाथों ने तल्खार पकड़ना सीखा ही न हो । पूर्वजों द्वारा अर्जित सम्पत्ति में से दान देना ये जानते थे । यह आजीवक सम्प्रदाय का अनुयायी था और इसने नागर्जुनी की पहाड़ियों में आजीवकों के लिये गुहाविहार बनवाये । दशरथ के बाद सम्प्रति मगध के सिहासन पर बैठा । यह जैन था । कहा जाता है कि इसने जैन-धर्म के लिये वही काम किये, जो अशोक ने बौद्ध धर्म के लिये किया था । साम्प्रदायिक हटि से यह सच हो भी सकता है । पर इसने मगध साम्राज्य को अपने गौरव पर आसीन नहीं कराया । अतः इसे अशोक-सा कहना अनुचित है । सैनिक दुर्बलता बढ़ती ही गई । सम्प्रति के बाद शालिशुक मौर्य सिहासन पर आसीन हुआ । पर इन बैने मौर्यों को दायरूप में बीरता नहीं मिली थी ; ढोग मिला था । गार्ग सहिता के अनुसार शालिशुक “राष्ट्रमदी” ( देशका पीड़क ) तथा “धर्मवादी त्यागार्थिक” ( धर्म की ढींगे हूँकने वाला किन्तु अधर्माचारी ) था । मौर्य साम्राज्य को अपने गौरवास्पद सीमा तक ले जाने के लिये, देशविजय के लिये तो इसमें बीरता और सहस बिलकुल नहीं था । पर अहिंसा प्रधान, प्रेम प्रधान, जैन धर्म के प्रचार के लिये इसने तल्खार का उपयोग किया । अशोक ने राजनीति में भी जिस तल्खार का उपयोग रोक दिया था, इस कायर ने उसी तल्खार का

उपयोग धर्म के चेत्र में किया । इस सम्प्रदायवादी राजा ने धर्म और पुरुष के अर्जन में सौजन्य तथा स्नेह का प्रयोग कम और तलबार का प्रयोग अधिक किया । सौराष्ट्र, गुजरात और पश्चिमी भारत की भूमि उसने रक्ष से लाल कर दी । प्रजा त्राहि त्राहि कर उठी । इसी शालिशुक के काल में सुभगसेन पश्चिमोत्तर प्रदेश ( गान्धार ) में मगध से अलग स्वतंत्र शासक हो गया । इसी के काल में एंटीयोक्स ने गान्धार पर आक्रमण किया और सुभगसेन ने उसे आत्मसमर्पण किया । पर एंटीयोक्स किसी कारण भारत की ओर न बढ़कर अपने देश सीरिया लौट गया । किन्तु उसके हड्के से आक्रमण ने संसार पर प्रकट कर दिया कि अब भारत में न तो चन्द्रगुप्त की तलबार है और न चाणक्य की मेघा । परिणामस्वरूप देश पर आक्रमण हुये । गंगा, यमुना के द्वारे तक को विदेशियों ने कुचला-नौदा ।

इस आक्रमण की धूलि को सरयू के तट पर बैठे एक वैष्णवकरण की मेघा ने देखा, परखा, और वह राजनीति के चेत्र में उतर पड़ा । इस विदेशी आक्रमण को रोकने के लिये एक निरा तदण सेनापति बड़ा, लड़ा, घायल हुआ और मगध की दुर्बल नीति के कारण खून का घृंट पीकर रह गया । पर आगे के भारत की कहानी, इसी सेनापति की कहानी है, जिसका नाम पुष्पमित्र शुंग था । पुष्पमित्र शुंग ब्राह्मण था । अष्टाष्वायी के रचयिता प्रसिद्ध वैष्णवकरण पाणिनि, शुंगों को भारद्वाज गोत्र का ब्राह्मण बताते हैं । आश्वलायन औतसूत्र में शुंग को आचार्य कहा गया है । पुष्पमित्र शुंग भारद्वाज गोत्र का ब्राह्मण था ।

### ब्राह्मण परम्परा के पुनरावर्तन के कारण—

भारत के अति प्राचीन इतिहास में भी ब्राह्मण और छत्रिय संघर्ष हाइगोचर होता है । विशिष्ट-विश्वामित्र, परशुराम-कार्तवीर्यार्जुन, उपनिषदों की परम्परा और आगे जैनो-बौद्धों की परम्परा । यह भी सम्भव है कि यह परम्परा आर भी गहरी हो । पर यह भी सच है कि साधारण रूप से

ब्राह्मणों में त्याग, तप और संयम को ज्यादा महत्व दिया जाता रहा है। त्याग-तप से हीन ब्राह्मण को हीन दृष्टि से देखा जाता रहा है। यही नहीं, ब्राह्मण सामाजिक परम्पराओं का, समाज के हित और मुख का सदैव से संरक्षक भी माना जाता रहा है। उसने समय समय पर अपने को समाज का संरक्षक सिद्ध भी किया है। इसीलिए वह परम्परा का पोषक और रूढ़िवादी भी रहा है। परशुराम सर्वज्ञत्वान्तक हुए, उन्होंने हृष्णों का विरोध किया; पर त्याग और तप को नहीं छोड़ा। ब्राह्मणों को सामाजिक परम्परा का संरक्षक होने की प्रेरणा वेदों से मिली और वेदों ने संन्यास को आदर्श नहीं माना—क्योंकि वेद समाज को शृहस्य के जीवन में प्राप्त है। पर शृहस्य जीवन को ब्राह्मणों ने संयम में बांधा। यही कारण है कि उपनिषदों का आनंदोलन ब्राह्मण कर्मकाशड के विरोध में होकर भी वेदों से बाहर नहीं जा सका।

### अमरण परम्परा की कमजोरी—

जैन धर्म बहुत पुराना धर्म था। वह वेद विरोधी भी था। पर उसमें तपस्या पर ज्यादा जोर दिया गया था। महाबीर ने उसमें कुछ संस्कार किया। पर फिर भी तपस्या को और ब्रह्मचर्य को विरोध महत्व दिया। बौद्ध का बौद्ध धर्म नया था। उसकी पुरानी परम्परा भी नहा थी। वह मत्यम मार्ग भी था। उसमें उतना तप पर जोर भी नहीं दिया जाया था। इसके अलावा नौद और जैन दोनों धर्मों ने जन आनंदोलन का रूप भी धारण कर लिया। बौद्धों और जैनों दोनों धर्मों के नेता यद्यपि संस्कार-सम्पन्न और कुलीन थे। पर दोनों का बल उनका संघ-बल था और दोनों संघों में शद्गीत तथा दासों की संख्या कम न थी। इन शूद्रों और दासों ने आध्यात्मिक भावना से ही जैन और बौद्ध संघ ने प्रवेश नहीं किया था। गुलामी, दासता और सासारिक कट्टा से बचने के बाबा रामना और कर्जे से मुक्ति मिल जाती थी। त्व०, म० प० एवं ना राखी ने

लिखा है कि लियाँ भी गुलामी की मार से बचने के लिये भिन्नशिर्य हो जाती थीं। बुद्ध के जीवन काल में ही बौद्ध संघों में व्यभिचार के अड्डे बन गये थे। इस कारण बुद्ध बड़े दुखी भी थे। अशोक ने तो स्वार्थियों और बदमाश भिन्न ग्रों को संघ से निकाल कर बौद्ध संघ का संस्कार भी किया था। इससे यह स्पष्ट होता है कि बौद्ध और जैन धर्मों को उनका संघ बह भी प्रभावित करता था। और इन संघों में हीन-संस्कार के ढोग तुसे थे, जो अपने हीन-संस्कार का प्रभाव डालते रहते थे। इस कारण ममाज में आचरण की ओर तो शिथिलता थी और शब्दों में त्याग, तपस्या तथा ब्रह्मचर्य का बोलबाला था। असलीयत तो बहुत कम थी; पर ढोग का बाजार गरम था। चरित्र में ओछापन, किन्तु बचन में तेजी थी। अशोक के बाद कोई ऐसा मौर्य नहीं पैदा हुआ, जो कुसंस्कार को शुभ संस्कार में बदल सकता, जो असंयम को संयम में बदल सकता, जो धार्मिक ढोग को हटाकर जीवन में पौरुष की प्रतिष्ठा कर सकता।

### पुष्पमित्र का आविर्भाव—

जिन बौद्धों और जैनों का कर्तव्य था ब्राह्मण ढोग और कमजोरियों से समाज की रक्षा करना, वही ढोगी और कमजोर हो गए थे। बौद्धों और जैनों के ढोग से प्रजा परेशान थी। इसके अलावा विदेशियों के हमले और बौद्धों तथा जैनों द्वारा विदेशियों के समर्थन ने तो और भी गजब ढाया। ब्राह्मणों को मौका मिला। उन्होंने पतञ्जलि के नेतृत्व में बौद्धों और जैनों का विरोध करना शुरू कर दिया। शासन सत्ता पर बृहद्रथ नामक बौद्ध राजा बैठा था। इसलिए ब्राह्मणों के विरोध ने राजनीतिक रूप धारण किया। साधारण ग्रहस्थों पर ब्राह्मणों का प्रभाव सदैव से था। अतः ब्राह्मणों के बौद्ध-जैन विरोध ने सामाजिक रूप धारण करना शुरू कर दिया। इसीलिए प्रजारक्षण की प्रतिशा में दुर्बल, अन्तिम मौर्य सम्राट् बृहद्रथ को उसी की सेना के सामने सेनापति पुष्पमित्र शुंग ने खुले खजाने सूर्य के चमकते प्रकाश में बाण से मार कर

राज्यशक्ति पर अधिकार कर लिया । निश्चय ही पुष्टमित्र ने यह सब एकाएक नहीं कर लिया होगा । निश्चय ही इसके पीछे कुछ सोच विचार और वड़यन्त्र भी रहा होगा । बहुत सम्भव है कि इस वड़यन्त्र के केन्द्र में स्वयं पतंजलि रहे हो, जिस प्रकार नन्दों के नाश में चाणक्य । पर सेना और प्रजा का इस राज-हत्या को चुपचाप सह जाना क्या यह भी सिद्ध नहीं करता है कि प्रजा कायर और दोगी मौर्य शासन से मुक्ति चाहती थी ? ।

### मगध में श्रमण-ब्राह्मण धात-प्रतिधात

पार्श्वनाथ से पूर्व, अर्थात् ६०० पू० ८०० से पहले ही मगध में श्रमण-संस्कृति का विकास हुआ था । महावीर पार्श्वनाथ की परम्परा में ही हुए । बुद्ध भी श्रमण संस्कृति के ही विकसित सुभूति थे । बुद्ध और महावीर दोनों का विकास मगध में ही हुआ था । मगध साम्राज्य का उदय विभिन्नार से प्रारम्भ हुआ । कुछ लोग उसे जैन कहने हैं; पर वह बुद्ध के प्रति भी अद्वा रखता था । विभिन्नार के पुत्र अजातशत्रु ने मगध साम्राज्य को पक्ष्यवित किया । वह बौद्ध था । सम्भवतः नन्द जैन था । पर उसका मन्त्री जिसे 'मुद्राराज्य' के रचयिता ने 'राज्य' कहा है, ब्राह्मण था । बहुत सम्भव है इस ब्राह्मण मन्त्री ने खूब समझ-बूझकर नन्दों को नीति को सर्वज्ञतान्तक बनाया—शूद्र द्वारा वेद विरोधी ज्ञातियों का नाश करवाया, पर शायद अपनी नीति में वह सीमा का अतिक्रमण कर गया । सम्भवतः इसीलिए एक और ब्राह्मण राजनीतिश सामने आया । उसने ज्ञातिय को गोद में डाला लिया । प्रसिद्ध है चाणक्य चन्द्रगुप्त को गोद में लेकर आया । उसने सर्वज्ञतान्तक शूद्र नन्दों का नाश करके मगध में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की । चाणक्य ने शूद्र सर्वज्ञतान्तक और वेद निन्दक नन्दों का नाश तो किया, पर जैनों और बौद्धों के विरुद्ध उसने कुछ न कहा, कुछ न किया । बहुत सम्भव है उस समय जैन और बौद्ध धर्म सामाजिक दृष्टि से परित नहीं हुए थे । इसीलिए ब्राह्मण चाणक्य ने चुपचाप सह

लिया । मगध में अमरण परम्परा के अनुकूल बातावरण था । उसका प्रभाव समाट् चन्द्रगुप्त मौर्य पर भी पड़ा ; पर अपने जीवन काल में चाणक्य ने जैन और बौद्ध धर्म को राष्ट्रधर्म का रूप न लेने दिया । चाणक्य की मृत्यु के बाद अशोक अभिषिक्त हुआ । अशोक पर बौद्धधर्म का प्रभाव पड़ा । अशोक ने बौद्धधर्म को राष्ट्रधर्म की सीमा तक चढ़ाया । यद्यपि अशोक के मंत्रियों को अशोक का यह धर्म न रखा ; पर उनमें कोई चाणक्य जैसा नहीं था, इसलिए अशोक को जब रोकना चाहिए तब नहीं रोक सके । यह सच है कि अशोक ने अपने काल तक मगध को सम्झाला ; पर बाद में ऊँचे व्यक्तित्व के अभाव में, सैन्य-संचालन-प्रक्रिया से रहित होकर, अहिंसा के ढोंग में बहकर मगध का मौर्य साम्राज्य मदा के लिए नष्ट हो गया ।

दुर्वल और दोंगी मौर्यों का उच्छेता ब्राह्मण ही था । नन्दों का उच्छेता चाणक्य भी ब्राह्मण था, पर वह गोद में एक ध्यात्रीय को लेकर आया और उस ध्यात्रीय चन्द्रगुप्त को अभिषिक्त किया; अन्तिम तु मौर्यों का उच्छेता पतञ्जलि अपनी गोद में ब्राह्मण को लेकर आया—पुष्यमित्र को लेकर । चाणक्य ने दिविजय की नीति चलायी ; पर उसने अश्वमेघ नहीं किया । सम्भवतः उसके काल में जैन और बौद्ध परम्परा इतनी निकम्मी नहीं हुई थी कि उसे सहज ही अलग कर दिया जाता ; पर पतञ्जलिका काल दूसरा था । उसके काल में बौद्ध जैन परम्परा ने अपने को अराष्ट्रीय तक सिद्ध कर दिया था । अतः पतञ्जलि ने अश्वमेघ की परम्परा चलायी—जनमेजय के बाद ही बन्द हुई वैदिक अश्वमेघ की परम्परा । और स्वयं पतञ्जलि पुष्यमित्र के अश्वमेघ के ऋत्विज हुए—“इह पुष्यमित्रं याज्यामः ।” चाणक्य ने पजाओं से विदेशी शक्तियों के विजय-विनह तक को मिटा दिया था । पतञ्जलि के काल में विदेशी शक्तियों को बौद्धों और जैनों ने सहारा दिया था । इसलिए पतञ्जलि के पुष्यमित्र ने विदेशी मिनान्डर की राजधानी साकल में पहुँच धोषणा की कि—“जो कोई मुझे

अमरण का कठा हुआ एक मस्तक देगा, उसे मैं १०० दीनारें दूँगा ।<sup>13</sup> चाणक्य के काल में साम्प्रदायिक विद्वान् राष्ट्रीय धरतल पर नहीं था ; अतः राजनीतिक चाणक्य उस और चुप है—यद्यपि असाधान नहीं । पर वैद्यकरण पतञ्जलि के सामने साम्प्रदायिकता का नग्न तारङ्ग हो रहा था । अतः पतञ्जलि को अपने महाभाष्य में ब्राह्मण अमरण का द्वेष शाश्वत कहना पड़ा । यही नहीं, जिन देशों में बौद्धों और जैनों का प्राचान्य था—जैसे अङ्ग, बङ्ग, कঙ्गिंग, मगध और सौराष्ट्र को पतित देश धोषित करना पड़ा । यही कारण है कि पुष्यमित्र के काल में सम्पादित मनुस्मृति में उपरोक्त देशों में तीर्थयात्रा के आलादा गमन पर प्रायश्चित का विधान है । यही नहीं, मगध में बौद्धों के तीर्थस्थानों का ब्राह्मणीकरण भी किया गया । इस प्रकार मौर्य साम्राज्य के अन्त के साथ ही साथ मगध से अमरण संस्कृति के पैर उखड़ने लगे ।

### मगध की प्राचीन भाषा—

मगध की प्राचीन संस्कृति और खास कर अमरण संस्कृति पर विचार करते समय मगध की प्राचीन भाषा और उस भाषा में निर्मित साहित्य पर विचार कर लेना भी आवश्यक है । सिंहली परम्परा के अनुसार मागधी ही वह मूल भाषा है, जिसमें भगवान् बुद्ध ने अपने उपदेश दिए । कच्चान-च्याकरण में कहा गया है—“सा मागधी मूल भाषा…सम्बुद्धा चापि भासरे” ( मागधी वह मूल भाषा है जिसमें…सम्यक् सम्बुद्ध ने भी भाषण दिया । ) वस्तुतः इन्द्रेद की विविधतामयी भाषा के मान्तशः विकसित रूप में मागधी भी आर्य भाषा परिवार में मगध की एक भाषा थी । बुद्ध ने इसी मागधी-भाषा में अपना उपदेश दिया । पाश्वनाथ और महाबीर ने भी इसी भाषा में अपना उपदेश दिया था ।

बुद्ध और महाबीर के उपदेश की भाषा मागधी थी, पर उस मागधी का रूप क्या था, यह बताना बड़ा कठिन है । विद्वानों का मत है कि पालि विपिट्क में मगध की प्राचीन भाषा का कुछ रूप है । पर वस्तुतः

त्रिपिटकों की पालि प्राचीन मार्ग की ठीक ठीक भाषा थी, यह नहीं कहा जा सकता। बुद्ध ने पैदल धूम-धूमकर सम्मूर्ह मध्यमण्डल में मौखिक रूप से अपना उपदेश दिया था। बुद्ध के शिष्यों में अनेक जातियों के लोग थे, अनेक स्थानों के अनेक भाषाभाषी लोग थे। और बुद्ध ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कह दिया था—“भिन्नुओ ! अपनी अपनी भाषा में बुद्ध वचन सीखने की अनुशा देता हूँ ।” अतः बुद्ध के उपदेशों की भाषा में अनेक वोलियों और भाषाओं का सम्मिश्रण हुआ होगा। यही नहीं, बुद्ध-निर्वाण के दो-तीन शातान्विद्यों में तीन बार अनेक स्थानों के भिन्नुओं ने मिलकर और सुनकर बुद्ध उपदेशों का संग्रह किया था। बुद्ध के उपदेशों का अन्तिम रूप से संकलन अशोक के काल में हुआ और वही सिंहत गया। इसलिए त्रिपिटक की पालि प्राचीन मार्गधी नहीं है। हाँ, उसमें प्राचीन मार्गधी का कुछ रूप अवश्य है।

पार्वनाथ और महावीर के उपदेशों का भी कठीन कठीन यही शास्त्र है। आगमों की सामान्य व्याख्या में आस कथन को आगम कहा गया है। और जैन सम्मत आस कौन है, इसे स्पष्ट करते हुए बताया गया है कि जिसने राग और द्वेष को जीत लिया, ऐसे तीर्थकर-जिन—सर्वां भवान आस हैं। अर्थात् जिनोपदेश जैनागम है। यहाँ भाषा का उल्लेख ही नहीं है। यही नहीं, सूत्र या प्रन्थ रूप में उपस्थित गणधर ग्रन्थीत जैनागम का प्रमाण गणधरकृत होने मात्र से नहीं है। उसके अर्थ के प्रयोग तीर्थकर की वीवरणता और सर्वार्थसाहस्रादित्र के कारण है। इससे सिद्ध है कि जैन साधकों की हठि भी भाषा पर नहीं थी; यद्यपि महावीर का उपदेश, अर्थ मार्गधी भाषा में हुआ, इसका उल्लेख है; पर संग्रह की हठि से भाषा के स्थान पर भाव पर हा विशेष नहीं है। इसके अलावा महावीर ने भी पैदल धूम-धूमकर अपना धर्मोपदेश बनता को दिया। शायद इसलिए जैन अनुश्रुति में महावार को भाषा को मार्गधी न कह कर ‘सर्वभाषानुगमिनी अर्थ मार्गधी भाषा’ कहा गया।

अब विचारणीय प्रश्न यह है कि बौद्ध अनुश्रुति के अनुसार पालि में मगध की मूल भाषा का रूप है। और जैन अनुश्रुति अर्धमागवी को मगध की भाषा के नजदीक मानती है। दोनों अनुश्रुतियाँ सत्य हो नहीं सकतीं। अतः सत्य क्या है? जैन अनुश्रुति के अनुसार महावीर के शिष्य सुधर्म ने महावीर के उपदेशों को उसी प्रकार स्मरण कर लिया था, जिस प्रकार महावीर ने कहा था। सुधर्म के बाद जग्मुखामी प्रभव और स्वयंभव ने क्रम से जिन उपदेशों की रखा की। यह बात पूर्व नन्द और नव नन्द युग तक की हुई। इसके बाद पुनः जैन अनुश्रुति के अनुसार महावीर-निर्वाण के करीब १६० वर्ष बाद पाटलिपुत्र में जैनागमों को व्यवस्थित रूप देने के लिये जैन विद्वान् साधुओं की प्रथम वाचना हुई। इस प्रथम वाचना में एकत्रित हुए श्रमणों ने एक दूसरे से पूछ-पूछ कर ११ अङ्गों को व्यवस्थित किया। किन्तु देखा गया कि उनमें से किसी को भी सपूर्ण हृषिकाद का पता न था। उस समय हृषिकाद के शाता आचार्य भद्रबाहु थे। किन्तु उन्होंने १२ वर्ष के लिये विशेष प्रकार के योगमार्ग का अवलम्बन किया था और वे नेपाल में थे। इसलिए जैन साधु संघ ने स्थूलभद्र को कई साधुओं के साथ हृषिकाद की वाचना के लिये भद्रबाहु के पास भेजा। स्थूलभद्र ने दश पूर्व सीखने के बाद अपनी श्रुतलक्ष्मि ऋदि का प्रयोग किया। इसका पता जब भद्रबाहु को चला तब उन्होंने अव्यापन करना छोड़ दिया। स्थूलभद्र के बहुत समझाने पर राजी भी हुए तो शेष चार की अनुशा नहीं दी। यही नहीं यह भी कहा कि तुमको मैं शेष चार पूर्व की सूत्र वाचना देता हूँ, किन्तु तुम इसे दूसरों को मत पढ़ाना। भद्रबाहु को चन्द्रगुप्त मौर्य का समकालीन कहा जाता है।

स्थूलभद्र को भद्रबाहु से जो कुछ प्राप्त हुआ, वह मौखिक था। स्थूलभद्र ने भी उसे मौखिक ही रखा। स्थूलभद्र की मृत्यु महावीर-निर्वाण के २१५ वर्ष बाद हुई। अर्थात् ८० पूर्व ३१२ तक जैनागमों

का बहुत कुछ एक मौखिक रूप में रहा । इसके बाद भी तरह तरह से जैनागमों के सरल्यण की मौखिक परम्परा जारी रही । आचार्य ब्रह्मदयपूर्वों के हाता थे और उनकी मृत्यु ११४ विक्रमी में हुई । पर उनका जन भी मौखिक ही था । बैन साहित्य के अनुसार अन्तिम वाचना वि० स० ५१० में वल्लभी में हुई ।

### पालि और अर्धमागधी—

बुद्ध वचनों का अन्तिम रूप से सकलन अशोक के काल में हुआ । यही नहीं उसकी तिथि निश्चित है । तीसरी सरीति बुद्धनिर्बाण के २३६ वर्ष बाद पाटलिपुत्र में हुई । अर्थात् ३५० पू० ३०७ में बुद्ध के उपदेशों का अन्तिम रूप से सकलन हो गया । पर इस सम्बन्ध में विद्वानों में विवाद है । अवः इसे हम छोड़ भी दें तो दो और प्रमाण हैं । एक हैं अशोक के शिलालेख, जिसकी भाषा पालि है और जिसका समय निश्चित है । दूसरा यह कि बहुगामणि अभय के समय में सिंहल में पालि भाषा में श्रिविटक लेखबद्ध हुए । बहुगामणि का समय प्रथम शती ३० पू० माना जाता है । पर अर्धमागधी का जो रूप जैनागमों में मिलता है, उसकी इतनी प्राचीनता का प्रमाण निश्चय ही नहीं मिलता । जिस रूप में अर्धमागधी के स्वरूप का साक्ष्य जैनागमों में मिलता है, उसकी ज्वनी और रूप को दृष्टि से पालि से समानताएँ तो हैं, पर उसके आधार पर भी अर्धमागधी को पालि के विकास की अवस्था ही कह सकते हैं । वस्तुतः जैनागमों की अर्धमागधी का रूप पालि के बहुत बाद का है । किन्तु पालि भी ठीक-ठीक सगध की भाषा नहीं है । वस्तुत पालि का विकास मध्यमहाद्वार में बाले जानेवाली उस अन्तर्प्रान्तीय सम्य भाषा से हुआ, जिसमें भगवान् बुद्ध ने अपने उपदेश दिए थे और जिसकी सज्जा बौद्ध अनुश्रुति के अनुसार 'मागधी' है । इसी मागधी के विकसित बहुत या अधिक ठीक कहीं तो विभिन्न

जनपदीय स्वरूप हमें अशोक के अभिलेखों की मार्गधी में मिलते हैं। यही मार्गधी अथवा पालि बिभिन्नसार से लेकर नन्दों और मौर्य सम्राटों तक की राज भाषा थी। राजकीय भाषा और धर्म की भाषा दोनों भाषा होने का गैरब पालि को मिला। इसी कारण इसकी प्रतिष्ठा दिग्नात् व्यापी हुई। करीब छः सौ वर्ष तक इस पालि भाषा ने भारतीय मानस में राज्य किया।

### जैनागम साहित्य

भाषा की दृष्टि से जैनागमों की प्राचीनता न होते हुए भी विषय और वस्तु की दृष्टि से जैनागम बहुत प्राचीन हैं। जैनों के तीनों सम्प्रदाय नारह अंगों के नाम के विषय में एकमत है। वे बारह अंग ये हैं:—

१. आचार, २. सूत्रकृत, ३. स्थान, ४. समवाय, ५. व्याख्याप्रश्नसि, ६. ज्ञातुर्धर्मकथा, ७. उपासक दशा, ८. अंतकृदशा, ९. अनुत्तरौप-पातिकदशा, १०. प्रश्न व्याकरण, ११. विपाकसूत्र, १२. दृष्टिवाद। जैन भास्यता के अनुसार दृष्टिवाद का लोप हो गया है। इन अंगों में आचार्य भद्रबाहु के बाद की बातें नहीं हैं, ऐसा नहीं कहा जा सकता। बहुत कुछ मिलावट है पर बहुत कुछ प्राचीन भी है। भीकृष्ण, जरासन्ध और पार्श्वनाथ की बातें भी इनमें हैं। महावीर के काल की बहुत सी बातें हैं। यही नहीं, इन जैनागमों में भारतवर्ष के तमाम पिछले दार्शनिक चिन्तन का आरम्भिक रूप है। ऐतिहासिक और दार्शनिक दोनों ही दृष्टि से जैनागम का बहुत महत्व है। पर यह वहे दुर्भाग्य की बात है कि ऐतिहासिकों दृष्टि से जैनागमों का सम्पादन अभी तक नहीं हुआ। जिस दिन साम्प्रदायिक बुद्ध से ऊपर उठकर जैनागमों का सम्पादन हो जायगा, उस दिन हमारे देश के इतिहास के कुछ बन्द पृष्ठ खुल जायेंगे, इसमें जरा भी सन्देह नहीं।

### त्रिपिटक साहित्य

प्राचीन मार्गधी साहित्य का अर्थ होता है बुद्ध के उपदेश। बुद्ध के

उपदेश त्रिपिटकों में तो हैं ; पर विनय और धर्म में ही उसका सारं रूप स्पष्ट होता है । बौद्ध धर्म की कोई प्राचीन परम्परा नहीं थी । बौद्ध संघ में ब्रह्मचर्य और त्याग को आवश्यक स्थान मिला था । पर फिर भी बुद्ध का मार्ग तपस्या का मार्ग नहीं, मध्यम मार्ग था । बुद्ध ने बहुत से आपरिपक्ष बुद्धि के तरणों का विलास छोड़वाकर उन्हें भिज्ञु संघ में लिया था । अनेक दासों और कर्जमन्दों ने अपनी रक्षा के लिये भिज्ञु संघ में शरण ली थी । ऐसी ही बहुत सी लियों भी भिज्ञुणी हुई थीं । इन्हीं कारणों से बुद्ध के काल में भिज्ञु संघों में व्यभिचार बढ़ गया । दौशास्त्रिक भिज्ञुओं के अनांचार के कारण बुद्ध को बहुत लिज्ज होना पड़ा था । इन्हीं सब कारणों से बुद्ध ने समय समय पर भिज्ञुओं के लिये आचार सम्बन्धी जो नियम बनाए, उन्हीं का संकलन विनय पिटक है ।

दीध-निकाय, मञ्जिकम-निकाय, संयुक्त-निकाय, अंगुत्तर-निकाय और खुदक-निकाय पालि साहित्य के अपूर्व ग्रन्थ हैं । हनमें बुद्ध के उपदेश सम्ब्रहीत है । इनमें छठीं और पांचवीं शताब्दी ई० पू० के भारतीय जीवन की पूरी झलक है । बुद्ध का ऐतिहासिक व्यक्तित्व, उनका मानवीय स्वरूप वहाँ स्पष्ट शब्दों में अक्षित मिलता है । इसमें यथार्थ और विवेक दोनों का स्पष्ट रूप है । बुद्ध के समकालीन अन्य अमण्डों, ब्राह्मणों, परिज्ञाजकों के सिद्धान्तों का विवरण भी इसमें है । धनी किसानों की स्थिति, गुलामों की स्थिति, गरीबों की स्थिति, प्रचलित उद्योग-व्यवसाय, कला और मनोरंजन के साधनों का वर्णन, राजनैतिक परिस्थिति, लियों की परिस्थिति, जाति और वर्णवाद का भी वर्णन है । साहित्य और ज्ञान की अवस्था, कृषि और वाणिज्य का भी पूरा पता इन ग्रन्थों से लग जाता है । इन ग्रन्थों के कुछ अंश तो बहुत ही प्रसिद्ध है । धम्मपद तो एक तरह से बौद्ध धर्म की गीता है । सुत्रनिपात का निदेस सारिपुत्र का लिखा है । सुत्रनिपात के विचार और उसकी शैली उपनिषदों की सी है ।

पालि साहित्य में जातकों का स्थान कम महत्वपूर्ण नहीं है । कहानी

कहा की हाइ से वह अति प्राचीन कहानी सग्रह है । इतिहास की हाइ से जातकों की अतीत-कथाओं का ऐतिहासिक मूल्य है । जातकों का असली नाम जातकहक्या है । वह जातकहक्या के सिंहली अनुवाद का फिर से किया हुआ पालि अनुवाद है । आचार्य बुद्धघोष ने यह अनुवाद प्रस्तुत किया है । मूल जातकहक्या में दो वस्तुएँ थीं, एक गाथाएँ और दूसरी उनकी अहक्या । प्रत्येक जातक की कहानी में वर्णन है कि बुद्ध के जीवन में अमुक अवसर पर इस प्रकार अमुक घर्ना घटी, जिससे उन्हें अपने पूर्व जीवन की वैसी ही बात याद आ गयी । फिर बुद्ध एक पुरानी कहानी सुनाते हैं और वही असल जातक—अतीत कथा होती है । उसका कुछ अश पालियों या गाथाओं में और बाकी गद्य में होता है, वह गद्य भी अट्ठकथा ही है । प्राचीन भारतीय जीवन के प्रत्येक पहलू पर जातकों से अच्छा प्रकाश पड़ता है । जातकों का हिन्दी अनुवाद हो चुका है पर अभी तक उसका ऐतिहासिक अध्ययन नहीं हुआ है ।

बुद्ध के उपदेशों का दार्शनिक ग्रन्थ अभिधम्म पिटक है । पर ऐसा नहीं कहा जा सकता कि अभिधम्म के अलावा और कहीं बुद्ध के धर्म का निर्देश या उपदेश नहीं है । वस्तुत सार रूप से अभिधम्म बौद्ध तत्त्व-दर्शन के अध्ययन की वस्तु है । इसीलिए उसे अभिधम्म अथवा उच्चतर धर्म कहा गया है । बौद्ध अनुश्रुति के अनुसार बुद्ध ने अभिधम्म का उपदेश सर्व प्रथम देवलोक में अपनी माता महामाया और देवताओं के लिये किया । बाद में उसी को उन्होंने अपने बुद्धिमान् शिष्य धर्म सेनापति सारिपुत्र को सुनाया । सारिपुत्र ने बुद्ध से सीखकर उसी अभिधम्म को ५०० भिन्नओं को सिखाया । इस अनुश्रुति से स्पष्ट है कि बुद्ध के नुने हुए कुछ शिष्य ही अभिधम्म का समझने में समर्थ थे । अवात् अभिधम्म पिटक बौद्ध तत्त्ववाद को समझने के लिये बुद्ध के उपदेशों का सार है । परम्परा से प्राप्त अभिधम्म-पिटक के सात ग्रन्थ इस क्रम से हैं--

१ धम्म सगणि, २ विभग, ३ कथावत्यु, ४ पुण्ड्रजपञ्चति,

५. धातुकथा, ६. यमक, और ७. पष्ठान। अभिघम्म का विषय यह बताना है कि व्यक्ति रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान रूपी पांच स्कृन्धों की समझि के अक्षात्रा और कुछ नहीं है। सभी स्कृन्ध अनित्य, अनात्म और दुश्ख हैं। इनमें अपनापन खोजना दुश्ख का ही कारण हो सकता है। अभिघम्म-पिटक में सभी स्कृन्धों का विश्लेषण करके विषय को स्पष्ट किया गया है; पर इन सब में बूल कल्प सुत्तन्त से ही ली गयी है। सुत्तन्त में उदाहरण दे देकर जन-साधारण की समझ में आनेवाली भाषा में समझाया गया है। पर अभिघम्म में उदाहरणों की सहायता नहीं ली गयी है, इसकी भाषा भी कठिन और पंडितों की समझ में आने लायक है। कहीं प्रश्न-उत्तर की शैली है और कहीं विषय की सूखमता को देखते हुए और उसको स्पष्ट करते हुए यमक शैली का भी उपयोग किया गया है। कहने का तात्पर्य यह कि अभिघम्म-पिटक शुष्क और गम्भीर ग्रन्थ है। पर यदि अद्वायूर्वक उसका अभ्यास किया जाय, तो सम्पूर्ण बौद्ध तत्त्व दर्शन उसी से स्पष्ट हो जायेगे।

### भारत की प्राचीन राष्ट्रभाषा—पालि

जैन आगम और बौद्ध त्रिपिटक मण्ड का प्राचीन साहित्य है। इस प्राचीन मागधी साहित्य में महाभारत काल से लेकर ईसा की पहली शताब्दी तक की बहुत कुछ चिन्ताधारा संग्रहीत है। यह नहीं कि इस काल में सकृत में रचना न हुई हो। उपनिषदों की रचना, दूतों की रचना और अर्थशास्त्र की रचना इसी काल में हुई। पर विभिन्न सार से लेकर अन्तिम मौर्य तक पालि राजकाज की भी भाषा थी। प्रधान रूप से पालि में ही अशोक के धर्मलेख सर्वत्र मिलते हैं। इससे सिद्ध है कि पालि उस काल की राजकाज की भाषा थी। अर्थात् मागधी जिन और बुद्ध के कठ से निकलकर सम्प्राट के कंठ की बाणी बनी, अनुशासनों की भी भाषा बनी।

### संस्कृत राज आसन पर

चाणक्य ने अपनी रचना संस्कृत में की , पर उसने पालि को उसके आसन से हटाया नहीं । शायद इसलिए कि उस समय अमण्ड जीवन और अमण्ड साधना निस्तेज नहीं थी । वह दोग और आडम्बर से पूरिष्ठर्ण रास्त की देर नहीं थी , पर पतञ्जलि ने पालि भाषा को भी उसके आसन से टकेल दिया । बौद्धों के शासन को ही उसने मराव से नहीं हटाया ; बौद्धों की भाषा—पालि को भी राज आसन से उतार दिया । पुष्यमित्र के काल से ही संस्कृत का भी अभ्युत्थान शुरू हुआ और मिर तो इसमें बाद का सारा बौद्ध और जैन साहित्य संस्कृत में ही निमित हुआ ।

---

## शुद्धिपत्र

प्र०	प०	अशुद्ध	शुद्ध
८	१०	साथ	हाथ
११	६	चहन	पुत्री
१२	८	जानजन	जातिजन
४	१७	रात्कचया	शत्कचया
२७	१२	बारह	स्यारह
४०	१	मुष्ठीय	मुष्ठीम
६९	६	साहत्य	साहित्य का अधिकाश



# बीर सेवा मन्दिर

पुस्तकालय

₹४८/-

काल नं०

सिंह

लेखक (प्रजोदि, १९७५)

शीर्षक भगव्य

खण्ड

क्रम संख्या

५२९